



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11—नवम्बर 17, 2006 (कार्तिक 20, 1928)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11—NOVEMBER 17, 2006 (KARTIKA 20, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2006

सं. 99-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :--

एसएस 39680 मेजर जेम्स थॉमस
10 सिख लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 जनवरी, 2006)

कम्पनी कमान्डर, मेजर जेम्स थॉमस को नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने का कार्य सौंपा गया था। 27 जनवरी, 2006 को उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के जनरल एरिया में घात लगाई। 28 जनवरी को 0230 बजे, उन्होंने घात क्षेत्र के छोर पर पहुंचने तथा दाईं तरफ से घुसपैठ का प्रयास कर रहे एक आतंकवादी दल को देखा। अपने टूप पर पीछे की ओर से खतरे को महसूस करते हुए वे आतंकवादियों को रोकने के लिए सुनिश्चित ढंग से आगे बढ़े, उन पर हथगोले फेंके तथा भयंकर गोलीबारी कर दी। दृढ़ निश्चय, अडिग साहस तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए वे अकेले ही चार आतंकवादियों को मार गिराने में सफल हुए। ऐसा करते हुए, उन्हें भी छरों से गंभीर घाव हो गए। इस बीच, उन्होंने दूसरी ओर से दो आतंकवादियों को आते हुए देखा। वे रैगकर आतंकवादियों के नजदीक गए, उन पर हथगोले फेंके तथा निजी हथियार से गोलीबारी की। घावों के कारण वीरगति को प्राप्त होने से पूर्व वे प्रतिभा का परिचय देते हुए दो आतंकवादियों को मारने में सफल हुए।

मेजर जेम्स थॉमस ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में भारतीय सेना की उच्च परम्पराओं का अनुसरण किया तथा असाधारण वीरता, सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

2.

श्री विजय पाल सिंह
उत्तर प्रदेश (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 10 अप्रैल, 2006)

10 अप्रैल, 2006 की शाम को विक्टोरिया पार्क मेरठ में आयोजित उपभोक्ता प्रदर्शनी 'ब्रांड इंडिया' में अचानक भयंकर आग लग गई। सूचना प्राप्त होने पर, अग्नि शमन सेवा दल घटना स्थल पर पहुंचा जिसमें श्री विजय पाल सिंह शामिल थे।

श्री सिंह ने जलते हुए पंडाल में प्रवेश किया तथा एक-एक करके लोगों को पंडाल से बाहर निकालने लगे। जल कर टपकते हुए पोलिमर तथा फटते हुए सिलेंडरों और ए सी कम्प्रेसरों की परवाह न करते हुए श्री सिंह आगे बढ़ते रहे तथा पूर्ण संकल्प तथा समर्पण के साथ उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने जलते हुए पंडाल से पच्चीस से अधिक लोगों को बचाया। इसी बीच, उनका पैर लकड़ी के फर्श में फंस गया। उन्होंने संघर्ष किया और अपने को निकाल लिया परंतु तब तक उन्हें जलने से गंभीर घाव हो गए। तेरह दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद, वे घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

श्री विजय पाल सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में सराहनीय साहस को प्रदर्शन किया तथा ड्यूटी करने में बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

बरुण मित्रा

निदेशक

~~निदेशक~~

संख्या 100-प्रेज/2006-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1.

श्री एल. सुब्रमण्यन्
केरल (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 दिसंबर, 2004)

26 दिसंबर, 2004 को केरल के आराटुपुझा गांव के समुद्र तट के क्षेत्र में सुनामी लहरें टकराईं। सूचना प्राप्त होने पर, सब इंस्पेक्टर श्री एल. सुब्रमण्यन् बचाव ऑपरेशन के लिए अपने दल के साथ समुद्री तट की ओर दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो समुद्र तट पर दूसरी लहर आ गई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।

जब बचाव ऑपरेशन चल रहा था, एक अत्यधिक भयंकर तीसरी लहर आ टकराई। सम्पूर्ण क्षेत्र दस फीट गहरे पानी में डूब गया। लोग तथा उनका सामान बह गया। श्री सुब्रमण्यन् तथा उसका दल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। जब हर चीज़ पानी के भंवर में फंसी थी तो श्री सुब्रमण्यन् ने एक लड़के तथा एक आदमी को थाम लिया। पानी के बहाव का दबाव इतना अधिक था कि पानी ने उन्हें एक भवन की ओर फेंक दिया जिससे श्री सुब्रमण्यन् को गंभीर घोटें आईं। परंतु उन्होंने अपने हाथों से उन व्यक्तियों को नहीं छोड़ा तथा उनका जीवन बचाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका।

श्री सुब्रमण्यन् ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर प्रतिकूल परिस्थितियों में दो व्यक्तियों का जीवन बचाने में असाधारण साहस तथा वीरता का परिचय दिया।

2.

3104223 राइफलमैन रियाज़ अहमद भट्ट
असम रेजिमेंट/35 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 अप्रैल, 2005)

14 अप्रैल, 2005 को एक संदिग्ध ओवर ग्राउंड कार्मिक से कुशलतापूर्वक पुछताछ करने पर उत्तरी सेक्टर में दो गुप्त ठिकानों में चार आतंकवादियों के होने की उपस्थिति की

पुष्टि हुई। घर में दो कमरे थे और प्रत्येक में छिपने का ठिकाना था/कमरों में तत्क्षण प्रवेश करने का निर्णय लिया। राइफलमैन रियाज़ अहमद भट्ट घर को खाली कराने वाले दल में शामिल थे। ज्यों ही राइफलमैन रियाज़ अहमद भट्ट ने कमरे में प्रवेश किया उसी समय एक आतंकवादी अचानक पृथक निकास द्वार से गोलीबारी करते हुए आया। बिना हिचके तथा बिना डरे उन्होंने उस आतंकवादी को नज़दीक की लड़ाई में गोली से उड़ा दिया। दूसरे कमरे से भी भारी गोलीबारी शुरू हो गई तथा राइफलमैन भट्ट ने निकास द्वार के निकट रणनीतिक ढंग से आड़ ली। घिरे हुए आतंकवादियों ने छोटे हथियारों से अंधाधुंध गोलियों की बौछार की तथा हथगोले फेंके। एक अन्य सिपाही जो तलाशी दल में शामिल था, को एक छर्लंगा लगा तथा वह एकदम खुले में फंस गया। बहादुरी के इस अद्वितीय कार्य में अपने घायल साथी को निकालने के लिए राइफलमैन भट्ट आड़ से बाहर आया। ऐसा करते समय वह फिर से दूसरे आतंकवादी के सामने आ गए जो गोलीबारी कर रहा था। परंतु अत्यधिक संकल्प तथा नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादी को मार गिराया तथा घायल सिपाही को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

इस प्रकार राइफलमैन रियाज़ अहमद भट्ट ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अद्वितीय सूझबूझ तथा सखाभाव के साथ असाधारण साहस का प्रदर्शन किया।

जेसी 468990 सूबेदार गुमान सिंह
राजपूताना राइफल/43 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 जून, 2005)

सूबेदार गुमान सिंह जब 11 जून, 2005 को उत्तरी सेक्टर के जनरल एरिया में तलाशी तथा सफाया ऑपरेशन चला रहे थे तो उन्हें जंगल में छिपे दो आतंकवादियों का पता चला। चार व्यक्तियों के एक छोटे से दल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को रणनीतिक ढंग से तैनात किया ताकि आतंकवादियों के बच निकलने के मार्ग को काटा जा सके तथा उनके नज़दीक पहुंचा जा सके। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके सूबेदार गुमान सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल होने के बावजूद, सूबेदार गुमान सिंह ने सुरक्षित स्थान पर जाने से इनकार कर दिया तथा दृढ़ निश्चय, अडिगता तथा रणक्षेत्र कौशल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों की ओर आगे बढ़ना जारी रखा। जिसके फलस्वरूप बहुत निकट से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। सूबेदार गुमान सिंह ने तब हथगोले फेंके तथा छिपे हुए आतंकवादियों पर उग्रता से गोलीबारी की जिससे एक कट्टर आतंकवादी ढेर हो गया जिसकी पहचान बाद में एक विदेशी आतंकवादी के रूप में हुई। उनके सिर में एक गोली लगी जिसके बावजूद सूबेदार गुमान सिंह ने सैन्य टुकड़ी के पहुंचने तक दूसरे छिपे आतंकवादी को घेरे रखा। उन्होंने कंपनी कमांडर को छुपे हुए आतंकवादी की जगह की ओर संकेत किया। सूबेदार गुमान सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। किंतु 02 जुलाई, 2005 को वे अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

सूबेदार गुमान सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में वीरता, उच्च चरित्र तथा दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

4.

3389870 नायक गुरजंट सिंह**13 सिख रेजिमेंट (मरणोपरांत)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 जुलाई, 2005)

नायक गुरजंट सिंह, जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात बटालियन में शामिल थे ।

07 जुलाई, 2005 को, 2330 बजे नियंत्रण रेखा की बाड़ के पास एक घात स्थल पर कुछ आतंकवादियों ने सीमा से बाहर जाने का प्रयास किया । एक दल ने जिसमें नायक गुरजंट सिंह शामिल थे, भागते हुए आतंकवादियों को रोका तथा भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई । जब दल के कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गए तो नायक गुरजंट सिंह ने नेतृत्व संभाला और शेष आतंकवादियों से भीड़े रहे । सीमा पार शत्रु क्षेत्र के ग्रामिणों ने इस दल पर कारगर ढंग से गोलीबारी की जिसमें नायक गुरजंट सिंह घायल हो गया । गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नायक गुरजंट सिंह अडिग साहस का परिचय देते हुए रेंगकर आगे बढ़े, हथगोले फेंके तथा भारी गोलीबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया । सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने तक शेष आतंकवादियों पर गोलीबारी करते रहे और गंभीर घावों के फलस्वरूप सर्वोच्च बलिदान कर दिया ।

नायक गुरजंट सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में गंभीर खतरों का सामना करते हुए तथा उच्च कोटि के साहस का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

5.

जेसी 529322 सूबेदार देवी प्रसाद**8 गढ़वाल राइफल**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 जुलाई, 2005)

सूबेदार देवी प्रसाद घातक प्लाटून के कमांडर थे । 15 जुलाई, 2005 को उत्तरी कश्मीर के केरान सेक्टर में आतंकवादी होने की संभावना के बारे में किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर, सूबेदार देवी प्रसाद ने उपयुक्त घात स्थल का चयन करने के लिए उस क्षेत्र का जायजा लिया तथा तुरंत एक रणनीतिक योजना तैयार की । उन्होंने 2100 बजे दल को तैनात कर दिया और चुपचाप इंतजार करते रहे । उनके दल ने आतंकवादियों के एक दल की हलचल देखी । उन्होंने आतंकवादियों को 15 मीटर तक नजदीक आने दिया और फिर उनपर भारी गोलीबारी की बौछार कर दी । इस गोलीबारी की लड़ाई में तीन आतंकवादियों ने बच निकलने का निष्फल प्रयास करते हुए उनपर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की । व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना सूबेदार देवी प्रसाद अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए उनके साथ भिड़ गए तथा उन्होंने स्वयं नजदीक की लड़ाई में तीन आतंकवादियों

को मार गिराया । उनकी इस कार्रवाई से प्रेरित होकर उनके दल न चार आतंकवादियों के पूरे दल का सफाया कर दिया ।

सूबेदार देवी प्रसाद ने विदेशी आतंकवादियों का सफाया करने में उच्च कोटि के नेतृत्व, कुशल रणनीतिक योजना तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन किया ।

6. **2986970 हवलदार मोहम्मद मारुफ**
23 राजपूत रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 जुलाई, 2005)

16 जुलाई, 2005 को उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट के एक गांव में एक घुसपैठी दस्ते का पता लगाया । उस घर को चारों ओर से घेर लिया गया जिसमें आतंकवादी छुपे हुए थे । हवलदार मोहम्मद मारुफ, घातक टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों की गोली के बीच रेंगकर उस घर के निकट गए । वीरता का प्रदर्शन करते हुए वे स्वयं उस घर के बहुत नजदीक पहुंचे तथा घर से बाहर निकल रहे आतंकवादियों पर निशाना साधते हुए कारगर ढंग से गोलीबारी करके बिलकुल नजदीक से तीन आतंकवादियों को मार गिराया । स्थान की बेहतरीन जानकारी होने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह न करते हुए हवलदार मोहम्मद मारुफ ने आतंकवादियों के बच निकलने के संभावित रास्ते को बंद कर दिया, जिससे नौ कट्टर आतंकवादियों का सफाया करने में सहायता मिली तथा बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद हुआ ।

हवलदार मोहम्मद मारुफ ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल तथा अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया ।

7. **श्री सीताराम शर्मा**
मध्य प्रदेश (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 18 अगस्त, 2005)

18 अगस्त, 2005 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के जौरी ब्राह्मण तहसील में चार अज्ञात शरारती तत्व दो गांव वालों का अपहरण कर उनको मारुति कार में डालकर ले जा रहे थे । जब एक स्थान पर अपहरणकर्ता रास्ता पूछने के लिए रुके तो अपहृत व्यक्तियों ने सहायता के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया ।

उनकी चीख-पुकार सुनकर एक ग्रामीण श्री सीताराम शर्मा उनकी सहायता के लिए दौड़े । अन्य लोगों ने उन्हें जोखिम न उठाने की चेतावनी दी क्योंकि अपहरणकर्ताओं के पास हथियार थे । किन्तु व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री शर्मा ने अपहरणकर्ताओं को ललकारा तथा दूसरों को मदद हेतु आगे आने के लिए पुकारा । उन्होंने एक कांटेदार लकड़ी से अपहरणकर्ताओं पर आक्रमण किया । अपहृत ग्रामीणों को छोड़ अपहरणकर्ताओं ने कार में

भागने की कोशिश की। किन्तु, श्री शर्मा ने शरारती तत्वों को बच निकल कर भागने नहीं दिया और उनके रास्ते में अड़े रहे। शरारती तत्वों ने उनपर गोली चला दी। एक गोली उनकी छाती में घुस गई तथा वे गिर गए। श्री शर्मा ने शरारती तत्वों के विरुद्ध लड़ाई करके अकेले ही दो व्यक्तियों की जान बचाई और अपनी जान न्यौछावर कर दी।

श्री सीताराम शर्मा ने शरारती तत्वों को घेरने के प्रयास में अनुकरणीय साहस तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया।

8.

13750356 हवलदार जगत राम

1 जम्मू-कश्मीर राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 9 सितंबर, 2005)

9 सितंबर, 2005 को जम्मू-कश्मीर के जनरल एरिया में "ऑपरेशन पीर" के दौरान हवलदार जगत राम घात दल में शामिल थे। 0200 बजे इस मार्ग के पास घुसपैठ का पता लगने पर सभी घात पार्टियों को सचेत कर दिया गया। 0315 बजे हवलदार जगत राम ने घात की तरफ आते एक आतंकवादी दस्ते को देखा। व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना तथा अडिग साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आतंकवादियों के 10-15 मीटर नजदीक आने तक स्थिर रहकर इंतजार किया और बिल्कुल नजदीक की दूरी से गोलीबारी शुरू कर दी जिससे आतंकवादी स्तब्ध रह गए और उन्होंने दो आतंकवादियों को मौके पर ही मार डाला। इसके बाद घुसपैठ को रोकने के लिए अपने उपदल को स्टॉपों के रूप में पुनः तैनात करने के बाद उन्होंने तीसरे आतंकवादी का पता लगाया तथा स्वेच्छा से आतंकवादी के निकट गए, जो उस क्षेत्र के शिलाखण्डों के बीच छुपा हुआ था और कमान अफसर के दल पर कारगर गोलीबारी कर रहा था। अनुकरणीय साहस तथा उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए हवलदार जगत राम आतंकवादी गोलीबारी के बीच रेंगकर आगे बढ़े तथा एक चट्टान पर चढ़ आतंकवादी के बिल्कुल सामने आ कर हथगोले फेंके और आतंकवादी पर टूट पड़े तथा भयंकर गोलीबारी में उसको मार डाला।

हवलदार जगत राम ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अदम्य साहस, पहल शक्ति तथा उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

9.

9094954 हवलदार अब्राहीम

जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/47 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 सितंबर, 2005)

29 सितंबर, 2005 को हवलदार अब्राहीम जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जंगलों में तलाशी तथा सफाया अभियान में एक छोटे दल का नेतृत्व कर रहे थे।

उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए वे जंगल में आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने पर सीधे ही पहुंचे। यह खुला ठिकाना था तथा जितना हो सके उतना निकट जाकर चकित करने के लिए उन्होंने रेंगकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवलदार अब्राहीम ने आतंकी संतरी को, जो ऊंचे स्थान पर था, पकड़ लिया और गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। छुपने के स्थान से आतंकवादियों ने पलटकर वार करते हुए छोटे हथियारों तथा हथगोलों से भारी गोलीबारी की। अत्यधिक दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करते हुए हवलदार अब्राहीम बिना डरे छुपने के स्थान में आतंकवादियों पर टूट पड़े तथा एक और आतंकवादी को मौके पर ही मार डाला। इस निडर तथा साहसिक आक्रमण से घबरा कर आतंकवादियों ने छुपने के ठिकाने को छोड़ दिया और भागना शुरू कर दिया। हवलदार अब्राहीम ने भागते आतंकवादियों का पीछा किया और तीसरे आतंकवादी का सफाया कर दिया।

हवलदार अब्राहीम ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अनुकरणीय साहस, अदम्य युद्ध भावना और जीतने की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया।

10. 2489724 सिपाही रणजीत सिंह
पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 21 अक्तूबर, 2005)

21 अक्तूबर, 2005 को 1250 बजे जम्मू-कश्मीर के सोपर जिले के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीमा सुरक्षा बल की बटालियन के एक कार्मिक पर आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी की तथा सीमावर्ती दुकानों पर कब्जा कर लिया। तलाशी ऑपरेशन से लौट रहे सैनिकों ने गोली चलने की आवाज सुनी। वे दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को घेर लिया तथा बच निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अपने साथी को गोलीबारी की आड़ मुहैया करा रहे सिपाही रणजीत सिंह ने एक आतंकवादी को देखा जो एक अफसर की तरफ हथगोला फेंक गोली चलाने के लिए निशाना साध रहा था। तुरंत पलटवार करते हुए सिपाही रणजीत सिंह आतंकवादी की तरफ तेजी से दौड़ा तथा बिल्कुल नजदीक से अचूक निशाना साधते हुए आतंकवादी को मार गिराया। साथ-साथ उन्होंने अपने अफसर को एक तरफ धकेल दिया और स्वयं हथगोले की चपेट में आ गए। इस प्रकार उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

इस प्रकार सिपाही रणजीत सिंह ने अतुलनीय तथा असाधारण वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन किया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया।

11.

एसएस 41046 लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह
4 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 25 अक्तूबर, 2005)

लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह को सूचना मिली कि जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला जिले के एक गांव के चिन्हित घरों में तीन-चार आतंकवादियों के आने की संभावना है।

25 अक्तूबर, 2005 को लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उस गांव में पहुंचे तथा इन्होंने 0030 बजे तक लक्षित घरों के चारों ओर तैनाती कर दी। शीघ्र ही तीन आतंकवादियों ने लक्षित घर में प्रवेश किया। 0530 बजे जब आतंकवादी घर से बाहर निकले तब लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह ने उनको ललकारा। आतंकवादियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी तथा बच निकलने के लिए वे सीधे उनकी तरफ दौड़े। व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह किए बिना यह अफसर वहीं खड़े रहे तथा बिलकुल नजदीक से उन में से दो को उड़ा दिया। तीसरा आतंकवादी घर के अंदर घुस गया। व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह किए बिना लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह ने एक हथगोला फेंका और घर के अंदर घुसकर तीसरे आतंकवादी को गोली मार दी। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप, कट्टर आतंकवादियों के स्वयंभू जिला कमांडर के रूप में वांछित, दुर्दांत आतंकवादी सहित तीन आतंकवादियों का सफाया हुआ।

लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह ने कर्तव्यपरायणता से भी बढ़कर असाधारण वीरता, दृढ़ संकल्प तथा व्यक्तिगत बहादुरी का प्रदर्शन किया।

12.

आईसी 51468 मेजर गोपी सिंह
गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 10 नवंबर, 2005)

मेजर गोपी सिंह को जम्मू-कश्मीर के रिज के आसपास आतंकवादियों की हलचल की सूचना मिली। उन्होंने आतंकवादियों को जंगल में दबोचने की एक योजना बनाई। 10 नवंबर, 2005 को 1645 बजे उन्होंने एक गुप्त रास्ते से गांव तक पहुंचने के लिए छोटे दल का नेतृत्व किया। घर के निकट पहुंचने पर उनका दल, दीवार के पीछे से की गई अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आ गया। दल ने तुरंत पलटवार किया तथा आतंकवादियों को दबोच लिया। मेजर गोपी चंद ने आतंकवादियों को निरंतर उलझाए रखा तथा दूसरे उपदल को आतंकवादियों से बच निकलने के संभावित रास्तों को बंद करने के लिए आदेश दिया। आतंकवादी एक घर में छुप गए। मेजर गोपी सिंह ने नेतृत्व प्रदान कर, व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह न करते हुए अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया तथा आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र रण कौशल का इस्तेमाल करते हुए बिलकुल निकट की दूरी से एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। जब वे एक अन्य आतंकवादी के निकट जाने का प्रयास कर रहे थे तो एक आतंकवादी की गोली की बौछार उनके चेहरे और गर्दन में लगी। इस बहादुर

सैनिक ने अपने आदमियों को आतंकवादियों के साथ लड़ते रहने के लिए प्रेरित करते हुए अंतिम सांस ली ।

मेजर गोपी सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, सैनिकोचित दक्षता का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

13.

15146963 गनर रंजीत सिंह**तोपखाना रेजिमेंट/29 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 नवंबर, 2005)

12 नवंबर, 2005 को जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला जिले के एक गांव के एक घर में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली । त्वरित कार्रवाई दल में शामिल गनर रंजीत सिंह ने घर को तुरंत घेर लिया । जब गनर रंजीत सिंह, अपने साथी तथा कंपनी कमांडर सहित घर में घुसने ही वाले थे तो एक आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घर से बाहर निकला जिससे गनर रंजीत सिंह घायल हो गए । उन्होंने निडरता से आतंकवादी का पीछा किया और उसे घायल कर दिया । आतंकवादी ने अचानक मुड़ कर गोली चलाई और गनर रंजीत सिंह को गंभीर रूप से घायल कर एक घर में घुस गया । अपने घावों की परवाह न करते हुए गनर रंजीत सिंह रेंगकर आगे बढ़े, घर के अंदर एक हथगोला फेंका तथा आतंकवादी को मार गिराया । अचानक, अन्य आतंकवादी ने ऊपरी मंजिल से गोलीबारी शुरू कर दी । गनर रंजीत सिंह ने गिरने तथा घावों के कारण वीरगति को प्राप्त होने से पहले गोलियों की बोछार करके दूसरे आतंकवादी को घायल कर दिया जिससे वह मजबूर होकर फिर से घर में घुस गया । आतंकवादियों से लड़ते हुए न केवल उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया बल्कि उन्होंने अपने कंपनी कमांडर की जान भी बचाई । इसके बाद दूसरे आतंकवादी को मार गिराया गया ।

गनर रंजीत सिंह ने खतरे के समक्ष कर्तव्यपरायणता से भी बढ़कर कार्य करते हुए अदम्य साहस का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेना की उच्च परम्पराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया ।

14.

13753810 नायक सरवन कुमार**जम्मू-कश्मीर राइफल/विशेष ग्रुप (22 विशेष बल)****(मरणोपरांत)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 नवंबर, 2005)

नायक सरवन कुमार जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला क्षेत्र में शुरू किए गए ऑपरेशन के स्वचाड कमांडर थे ।

19 नवंबर, 2005 को 0030 बजे सैनिकों ने घरों के एक समूह को घेरा । नायक

सरवन ने एक दो-मंजिला घर में संदिग्ध गतिविधि देखी। उन्होंने अपने कंपनी कमांडर को सूचना दी और चुपके से निकास द्वार को घेर लिया। 1130 बजे यह भांप कि वे फंस गये हैं आतंकवादियों ने हथगोले फेंक गोलीबारी करते हुए बच निकलने का हताश प्रयास किया और नायक सरवन कुमार के साथी को घायल कर दिया। भारी गोलीबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य रखा तथा बेहतरीन प्रतिक्रिया और अडिग साहस का प्रदर्शन करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया तथा दूसरे को घायल कर दिया। अपने हथियार की मैगजीन को बदलते समय उन्होंने एके 47 से गोलीबारी करते हुए तीसरे आतंकवादी को देखा और उसके निकट गए। गोलियों की बौछार से गंभीर रूप से घायल होने पर भी, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, उन्होंने आतंकवादी को रोका तथा गुत्थमगुत्था की भयंकर लड़ाई में अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए शहीद होने से पूर्व उस आतंकवादी को मार दिया। आतंकवादी के साथ गुत्थे हुए उनके शव को बरामद किया जिसके एक हाथ में आतंकवादी तथा दूसरे में हथियार था।

नायक सरवन कुमार ने असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस तथा साहसिक कार्यवाई का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्च परम्पराओं के अनुरूप बलिदान दिया।

15. एक्स-जीएस-173840 एक्स अधीक्षक भवन/सड़क ग्रेड-II, गनेशन एम
(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 जनवरी, 2006)

437 सड़क रखरखाव प्लाटून के अधीक्षक भवन/सड़क ग्रेड-II, गनेशन एम को परियोजना हीरक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बांदिया नदी पर 179.94 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण हेतु अप्रैल 2005 से डिटेचमेंट एटापल्ली में तैनात किया गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य कुछ समय से नक्सली समस्या से जूझता रहा है तथा वे राज्य में किसी विकास कार्य तथा बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करने दे रहे थे। यद्यपि निर्माणाधीन सेतु स्थल नक्सली प्रभावित क्षेत्र में है किंतु श्री गनेशन एम के तकनीकी कौशल तथा कुशल प्रशासन के कारण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर था। इसलिए वे नक्सलियों की आंखों में खटक रहे थे। सेतु पर निर्माण कार्य रोकने के लिए नक्सलियों की ओर से बार-बार धमकियों तथा भयंकर परिणाम भोगने की चेतावनी के बावजूद उन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा।

14 जनवरी, 2006 को लगभग 2200 बजे 70-80 सशस्त्र नक्सलियों के एक दल ने एटापल्ली में जीआरईएफ कैम्प पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कैम्प में सहकर्मियों को पीटना शुरू कर दिया तथा चिल्ला कर पूछने लगे कि सेतु का निर्माण कौन कर रहा है। साथ ही उन्होंने निजी सामान को लूटना शुरू कर दिया और वहां पर खड़े वाहनों तथा संयंत्रों को आग लगा दी। अपने सहकर्मियों को बचाने के लिए श्री गनेशन एम आगे आए तथा उन्होंने उच्च कोटि का नेतृत्व व कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए आक्रमणकारियों को बताया कि वह इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार के आदेश के अनुसार वे सेतु का निर्माण

कर रहा है । उस पर आक्रमणकारियों ने उनको पीटना शुरू कर दिया और अंततः उनको निर्दयता से मार दिया । श्री गणेशन एम ने सर्वोच्च बलिदान कर अपने सहायक ओवरसीयर लाला राम, चार जीआरईएफ कार्मिकों तथा दस सीपी मजदूरों सहित अन्य की जान बचाई।

इस प्रकार अधीक्षक भवन/सड़क ग्रेड-II, गणेशन एम ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए अपनी ड्यूटी निष्पादित की और सर्वोच्च बलिदान दिया ।

16.

4467595 कंपनी हवलदार मेजर सरबजीत सिंह

10 सिख लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 जनवरी, 2006)

कंपनी हवलदार मेजर सरबजीत सिंह जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले के जनरल एरिया में घात दल में शामिल थे ।

28 जनवरी, 2006 को 0230 बजे उन्होंने घात स्थल के पास आतंकवादियों के एक दल को घूमते तथा एक छोर की ओर जाने का प्रयास करते हुए देखा । ये भांपते हुए कि घुसपैठिए आतंकवादी बच निकलेंगे तथा इससे अपने सैनिकों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, वे आतंकवादियों के निकल कर जा रहे दल को रोकने हेतु साहस से आगे बढ़े । कंपनी हवलदार मेजर सरबजीत सिंह तथा उनके साथी बिलकुल नजदीक की भयंकर गोलीबारी की लड़ाई में आतंकवादियों से भिड़ गए जिसमें उन्हें छर्रे के गंभीर घाव लगे । दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करते हुए तथा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथी के साथ चार आतंकवादियों को असहाय कर दिया । उसी समय उन्होंने बगल से आते हुए दो और आतंकवादियों को देखा । कंपनी हवलदार मेजर सरबजीत सिंह दृढ़ निश्चय के साथ आ रहे आतंकवादियों की ओर रेंगकर आगे बढ़े, उनपर हथगोले फेंके तथा निजी हथियार से गोलीबारी की । अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त होने से पहले वे दो आतंकवादियों को घायल करने में कामयाब रहे ।

कंपनी हवलदार मेजर सरबजीत सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता तथा सखा-भाव का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

बरुण मित्रा

निदेशक

संख्या 101-प्रेज/2006-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-52752 मेजर मनीष कुकरेती, सेमे
5 जाट रेजिमेंट
2. आईसी-55810 मेजर जंग बहादुर सिंह, सेमे
सेना सेवा कोर/38 राष्ट्रीय राइफल

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 102-प्रेज/2006-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-46868 लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बख्शी,
13 डोगरा रेजिमेंट (मरणोपरान्त)
2. आईसी-46914 लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश कुमार चमेला,
15 जाट रेजिमेंट
3. आईसी-50052 लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार रैना,
तोपखाना/6 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-50284 लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य विक्रम सिंह राठी,
ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-52000 मेजर गुरप्रीत सिंह, 23 राजपूत रेजिमेंट
6. आईसी-53608 मेजर प्रतीक, पंजाब रेजिमेंट/7 राष्ट्रीय राइफल
7. आईसी-54563 मेजर राजीव घोष, 4 जाट रेजिमेंट
8. आईसी-52618 मेजर नवीन तियोतिया,
सेना वायु रक्षा/1 असम राइफल
9. आईसी-54740 मेजर चरण देव सिंह,
12 बटालियन द जम्मू-कश्मीर राइफल
10. आईसी-55346 मेजर सुरेश सिन्धु, 3 पैरा (विशेष बल)

11. आईसी-56608 मेजर मनीष नागपाल,
राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
12. आईसी-57763 मेजर विक्रम कादियान,
असम रेजिमेंट/35 राष्ट्रीय राइफल
13. आईसी-58701 मेजर रवि कुमार माने, 6 असम रेजिमेंट
14. आईसी-59519 मेजर एसजी सुधांशु शेखर,
तोपखाना/9 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-59940 मेजर अभिनव शर्मा,
असम रेजिमेंट/42 राष्ट्रीय राइफल
16. आईसी-61256 मेजर दिगविजय सिंह चौहान,
इंजीनियर्स/36 राष्ट्रीय राइफल
17. आईसी-64366 मेजर विमल शर्मा, 12 जम्मू-कश्मीर राइफल
18. आईसी-64815 मेजर देवेन्द्र सिंह रोहिला,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स/14 राष्ट्रीय राइफल
19. एसएस-38657 मेजर उदय गणपतराव जरांडे,
तोपखाना/4 असम राइफल
20. एसएस-39551 मेजर अरूणदेव सिंह जसरोटिया,
12 जम्मू-कश्मीर राइफल
21. आईसी-60250 कैप्टन हरप्रीत सन्धु, 4 पैरा (विशेष बल)
22. आईसी-60459 कैप्टन अशोक कुमार शर्मा,
कुमाऊं रेजिमेंट/13 राष्ट्रीय राइफल
23. आईसी-61862 कैप्टन राजेन्दरा सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-62661 कैप्टन अनिल कुमार, सिगनल कोर/15 राष्ट्रीय राइफल

25. एसएस-39824 कैप्टन आशुतोष शर्मा, 15 जाट रेजिमेंट
26. एसएस-39921 कैप्टन रोहन साहनी, तोपखाना/34 राष्ट्रीय राइफल
27. एसएस-40082 कैप्टन गौरव ग्रेवाल, 5 जाट रेजिमेंट
28. एमएस-15071 कैप्टन विजय कुमार कृष्णा मोरे,
सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल दक्षिण कमान
29. आईसी-63413 लेफ्टिनेंट रूपिंदर सिंह,
12 बटालियन द जम्मू-कश्मीर राइफल
30. आईसी-63459 लेफ्टिनेंट अमर महादेव भोसले, 20 जम्मू-कश्मीर राइफल
31. आईसी-63969 लेफ्टिनेंट जे नार्हायानान, 21 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)
32. आईसी-64079 लेफ्टिनेंट मनीश पंत, 13 डोगरा रेजिमेंट
33. एसएस-40580 लेफ्टिनेंट सागर छेत्री, 18 पंजाब रेजिमेंट
34. एसएस-41342 लेफ्टिनेंट आनन्द कुमार, 20 जम्मू-कश्मीर राइफल
35. जेसी-412701 नायब सूबेदार खोत मधुकर नारायण,
21 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)
36. जेसी-412760 नायब सूबेदार योगम्बर सिंह,
4 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)
37. जेसी-499333 नायब सूबेदार अवतार सिंह,
13 सिख रेजिमेंट (मरणोपरांत)
38. 2782279 कंपनी हवलदार मेजर मोहम्मद अश्रफ शैख,
22 मराठा लाइट इन्फैंट्री
39. 2788931 हवलदार मुद्शी गुरप्पा तम्मा
21 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)

40. 4360512 हवलदार थनसिंग कैथांग सिमते,
असम रेजिमेंट/42 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
41. 4558682 हवलदार हिम्मतराव पाण्डुरंग पैठाने, 1 महार रेजिमेंट
42. 13751198 हवलदार राजिन्द्र कुमार, 1 जम्मू-कश्मीर राइफल
43. 13754365 हवलदार हरदीप सिंह, 17 जम्मू-कश्मीर राइफल
44. 14493409 हवलदार सुभाष चन्द,
तोपखाना/57 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
45. 4361162 लासं हवलदार हितेस्वर रे, 8 असम रेजिमेंट
46. 2487592 नायक दलजीत सिंह, 26 पंजाब रेजिमेंट
47. 3185323 नायक सरवन राम, 14 जाट रेजिमेंट
48. 3994499 नायक सतीश कुमार,
पैराशूट रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
49. 4071524 नायक विजय कुमार धसमाना,
गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
50. 4073535 नायक सुख-पाल सिंह,
गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
51. 4074597 नायक दिगविजय सिंह,
गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
52. 4076365 नायक राजेश कुमार बहुगुणा,
गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
53. 9095971 नायक ओम राज, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/
31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो) (मरणोपरांत)
54. 13759208 नायक सुभाष चंद, 8 जम्मू-कश्मीर राइफल

55. 14702902 नायक धुर्बा राय, 1 नागा रेजिमेंट
56. 14416825 नायक हरी राम, तोपखाना/36 राष्ट्रीय राइफल
57. 2485844 लांस नायक मोहन लाल, 25 पंजाब रेजिमेंट
58. 2996924 लांस नायक कुलदीप सिंह, 13 सिख रेजिमेंट (मरणोपरांत)
59. 2997080 लांस नायक कपिल देव, 23 राजपूत रेजिमेंट
60. 4075383 लांस नायक किनोद सिंह,
गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
61. 4077945 लांस नायक राजेन्द्र सिंह,
गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
62. 4078931 लांस नायक राजेन्द्र प्रसाद, 2 गढ़वाल राइफल (मरणोपरांत)
63. 4078950 लांस नायक राजेन्द्र सिंह बिष्ट, 8 गढ़वाल राइफल (मरणोपरांत)
64. 13758872 लांस नायक फारूक अहमद राथर, 20 जम्मू-कश्मीर राइफल
65. 13759848 लांस नायक रजनीश कुमार शर्मा,
5 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)
66. 14429640 लांस नायक धर्मेन्द्र कुमार रंजन,
तोपखाना/32 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
67. 15138801 लांस नायक सुर्य मनी बेहरा,
तोपखाना/32 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
68. 15611723 लांस नायक हेम सिंह यादव,
ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/21 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
69. 2492857 सिपाही अशोक सिंह सलाथिया,
पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल

70. 3004501 सिपाही विक्रम सिंह,
राजपूत रेजिमेंट/58 राष्ट्रीय राइफल
71. 4003614 सिपाही केशव दत्त,
डोगरा रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
72. 4191239 सिपाही दिपक ओझा, कुमाऊं/50 राष्ट्रीय राइफल
73. 14703925 सिपाही के एस थेनरयी, 1 नागा रेजिमेंट
74. 4083146 राइफलमैन दिपक चौहान,
गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
75. 4085855 राइफलमैन नीलम सिंह राणा, 2 गढ़वाल राइफल
76. 13768298 राइफलमैन उत्तम मुखिया,
17 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)
77. 13771588 राइफलमैन सुरिन्द्र कुमार, 1 जम्मू-कश्मीर राइफल
78. 15776416 गनर राजानेकर रेड्डी सल्लाराम
सेना वायु रक्षा/23 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
79. 4371737 पैराट्रूपर डेविड खिंग, 21 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)
80. 2696025 ग्रेनेडियर सुमेर सिंह शेखावत, 16 ग्रेनेडियर्स
81. 15614467 गार्ड्समैन संदीप कुमार,
ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स/21 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 103-प्रेज/2006-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. लेफ्टिनेंट सुप्रदीप चेन्नूपाटि, (05207-एच)
2. राम मेहर, पीओ सीडी I, (172508-आर)
3. अमरजीत, एसटीडी I (155992-बी)
4. रविन्दर कुमार, पीओ सीडी I (115081-जेड)
5. अनूप सिंह, एसईए I सीडी II (121680-वाई)
6. अजय कुमार, एलएस सीडी I (116383-एच)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 104-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, **स्क्वाड्रन लीडर गुरजोत सिंह भुल्लर (22901), फ्लाईंग (पायलट)** को उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए **"वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल"** प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

बरुण मित्रा
निदेशक

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2006

सं. 556, दिनांक 12 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (91) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री अशोक कुमार को 14 सितम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से 18 जून, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नफरी के अवर सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के आदेश संख्या 4/2/2006-सी एस-1 (पी.टी.) के तहत 21.09.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के तदर्थ अनुभाग अधिकारी श्री जयबिन्द सिंह बिष्ट को 08.09.2006 के पूर्वाह्न से 31.12.2006 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधधीन 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

(i) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(ii) यह तदर्थ व्यवस्था एस समय तक चलती रहेगी जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाएं। उक्त दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हक न होने वाले तदर्थ नियुक्तिधारकों को इस प्रकार नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनको आर्बटिड संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री रवि शंकर बिस्सा का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 8 सितम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना इस मंत्रालय की 14 सितम्बर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

वी. सरस्वती
उप सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 557, दिनांक 13 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा सेवा (92) के श्री विनोद कुमार विजय को दिनांक 06.09.2006 के पूर्वाह्न से दिनांक 05.09.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय
निदेशक (वित्त/स्था.)

(थल सेना विभाग)

सं. 558, दिनांक 18 अक्टूबर 2006--थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर

डीएस-12128-एक्स जॉयदीप बसाक, एडी कोर, बीडीएस कोलकाता,
18 अक्टूबर 2004।

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 18.04.2004 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए छः महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(11.08.2005 और 08.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

डी. के तनेजा
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

(सेना शाखा)

सं. 559, दिनांक 17 अक्टूबर 2006—यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति, 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परख पर)

लेफ्टि विजेन्द्र सांगवान (एमएस-14642ए), एएमसी, 04 फरवरी 2003।

(इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के पश्चात् दिनांक 04.05.2003 से कप्तान के पद पर पदोन्नत)

कप्तान सुमित लयवाल (एमएस-14435एन), एएमसी, 13 मार्च 2002।

कप्तान अर्चना दलेला (एमएस-15122एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान पूर्णिमा शर्मा (एमएस-15123के), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान क्षितिज सिसौदिया (एमएस-15125पी), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान सार्थक पट्टनायक (एमएस-15126एक्स), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान प्रशान्त पठनिया (एमएस-15130ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान ज्योति सभरवाल (एमएस-15131एच), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान मो तबरेज आलम (एमएस-15133एन), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान खुशप्रीत सिंह ओबरॉय (एमएस-15134डब्ल्यू), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान कुसुम खाती (एमएस-15136एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान शिल्पी अरोड़ा (एमएस-15141एम), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान थैगंटिलल लोजेम (एमएस-15143एक्स), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान मधुसूदन बी जी (एमएस-15144ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

कप्तान संकल्प सिंह (एमएस-15229डब्ल्यू), एएमसी, 27 फरवरी 2006।

सर्जन लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि अनुप कुमार (एमएस-14850पी/75853टी), एएमसी, 27 जुलाई 2004।

सर्जन लेफ्टि सुरसे योगेश्वर बालासाहेब (एमएस-15016एच/75884एन), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि प्रतीक सिंहा (एमएस-15017एल/75887डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि जयराम यादव (एमएस-15018एन/75886टी), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि मार्क बीलचम जी मोमीन (एमएस-15019डब्ल्यू/75888वाई), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि जोशी जयन्त भास्करराव (एमएस-15020एल/75889जेड), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि मोनिका सक्सेना (एमएस-15021एन/75892एफ), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि लेवि मार्क मनोहरन (एमएस-15048एल/75882एच), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि त्रिलोक चन्द्र भट्ट (एमएस-15049एन/75885आर), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि ऐजाम अहमद (एमएस-15050एम/75890ए), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि अंजलि पाण्डेय (एमएस-15051एल/75891बी), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि नंबालला जगदीश (एमएस-150157ड/75883के), एएमसी, 12 अप्रैल 2005।

सर्जन लेफ्टि प्रणव साफिया (एमएस-14324डब्ल्यू/75767वाई), एएमसी, 21 जनवरी 2002।

सर्जन लेफ्टि अमीत कुमार अग्रवाल (एमएस-15103डब्ल्यू/75904एच), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि दीपक चौहान (एमएस-15111पी/75912ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि रोहित वर्मा (एमएस-15158ए/75899वाई), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि आर राजेश (एमएस-15160एक्स/75913बी), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि विनोद पाल सैनी (एमएस-15162एच/75907आर), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि सिनलकर दत्तात्रय रामकृष्ण (एमएस-15163एल/75906एन), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि मनीषा ठाकुर (एमएस-15164एन/75902बी), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि चौहान अर्चना चन्द्रकान्त (एमएस-15167एफ/75905के), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि रेखा घई (एमएस-15168के/75898डब्ल्यू), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

सर्जन लेफ्टि सुमित लखनपाल (एमएस-15187पी/75908टी), एएमसी, 23 दिसम्बर 2005।

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान रवीन्द्रा इन्द्रा (एमएस-14890डब्ल्यू), आयोग की तिथि 05 अक्टूबर 2004।

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2001 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडीसिन के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

सर्जन लेफ्टि आर सेलाथा (एमएस-14830एफ/नैवी नं. 75846ए), आयोग की तिथि 29 मार्च 2004।

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 29 सितम्बर 2000 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता 36 महीने पीजी डिग्री एवं 6 महीने अस्पताल नियुक्ति के लिए 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

सर्जन लेफ्टि रितू अग्रवाल (एमएस-14829एम/75845जेड), आयोग की तिथि 29 मार्च 2004।

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 29 मार्च 2001 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडीसिन के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

सर्जन लेफ्टि सरबति राय चौधरी (एमएस-14633वाई/75813ए), आयोग की तिथि 25 फरवरी 2003।

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अगस्त 2000 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता प्रसूति विज्ञान के लिए 30 (24+06) महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

फ्ला लेफ्टि के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्टि अरुण कुमार (एमएस-15171के), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि दीपक कुमार बड़ों (एमएस-15173पी), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि विनय कुमार दूबे (एमएस-15175एक्स), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि अमृत लाल राजन (एमएस-15180एल), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि अरुण कुमार पात्र (एमएस-15230एल), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि अजय प्रताप सिंह (एमएस-15237पी), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि नीति सिंघ वानि (एमएस-15238-एक्स), एएमसी, 11 फरवरी 2006।

फ्ला लेफ्टि राहुल सुद (एमएस-14886एन/एफ-27660), एएमसी, 28 सितम्बर 2004।

फ्ला लेफ्टि अर्णब गांगुली (एमएस-15169एम), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि विनोद कुमार वर्मा (एमएस-15170एफ/एफ-28402), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि के कनगराजु (एमएस-15176एच), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि ज्योत्सना अत्री (एमएस-15177एल), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि पिजस घोराय (एमएस-15178एन), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि अनुमेहा (एमएस-15181एन), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि विजय मैत्री (एमएस-15182डब्ल्यू), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि क मणि (एमएस-15189ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि रोहित वशिष्ठ (एमएस-15231एन/एफ-28410), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005।

फ्ला लेफ्टि पूजा खुराना (एमएस-14424एफ/एफ-26483), एएमसी, 21 जनवरी 2002।

फ्ला लेफ्टि धारीत्रि हातिबरूच (एमएस-14665एफ/एफ-26934), एएमसी, 09 अप्रैल 2003।

फ्ला लेफ्टि सुधीर कुमार (एमएस-14857वाई/एफ-26902), एएमसी, 11 मार्च 2002।

फ्ला लेफ्टि लनवीत कौर (एमएस-14880-एम/एफ-26932), एएमसी, 31 मार्च 2003।

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

फ्ला ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ्ला ऑफिसर विवेक रंजन सिंह (एमएस-15087के), एएमसी, 29 अक्टूबर 2005।

फ्ला ऑफिसर शैलेन्द्र सिंह (एमएस-15090के), एमसी, 29 अक्टूबर 2005।

फ्ला ऑफिसर विशी चौधरी (एमएस-15091एम), एमसी, 29 अक्टूबर 2005।

फ्ला ऑफिसर असीम शर्मा (एमएस-15094ए), एमसी, 29 अक्टूबर 2005।

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
डिप्टी डीजीएफएमएस (पर्स.)

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 560, दिनांक 18 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डीईएस/अनु-1/03 दिनांक 25 मई 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्मिक शाखा (सामान्य सेवा) में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले., के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म और कमीशन की तिथि
कार्मिक शाखा (सामान्य सेवा)

दीपक कुमार राउत (05400वाई), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

अभिजीत चन्द्रकांत संगाले (05401जैड), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

सत्यजीत निवरातीराव सामले (05402ए), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

पंकज शर्मा (05403वी), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

एस. एच. हर्षवर्द्धन (05404एफ), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

सत्यनारायण रे (05405एच), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

कृष्णमूर्ति अथानी (05406के), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

अजु दास (05407एन), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

बलबीर राज सिंह (05408आर), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

दीपाश सिंह कटल (05409टी), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

अंशुल (05410डब्ल्यू), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

सुनील शर्मा (05412जैड), अस्थायी, 13 जनवरी 2003

राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डीईएस/अनु-1/03 दिनांक 06 जून 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (संभरण कैडर) के में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले., के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना-ला कैडर

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म और कमीशन की तिथि
फरवरी 2003

सब ले. बरखा राठौर (05399डब्ल्यू), अस्थायी, 10 फरवरी 2003

राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1401/डीईएस/अनु-11/03 दिनांक 06 जून 2006 के अधीन भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले., के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म और कमीशन की तिथि
शिक्षा शाखा

विशाल विनायक येलेगांवकर (70483एन), अस्थायी, 11 अगस्त 2003

जॉयदीप देव (70486डब्ल्यू), अस्थायी, 11 अगस्त 2003

वाल्सला सिंह (70488जैड), अस्थायी, 11 अगस्त 2003

सी एस मंजूनाथ (70489ए), अस्थायी, 11 अगस्त 2003

गणेश एस गायकवाड़ (70491एफ), अस्थायी, 11 अगस्त 2003

विरेन्द्र सिंह स्थालिया
कमांडर

मावत निदेशक जनशक्ति (आर एण्ड आर)

सं. 561, दिनांक 12 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि. प्र: 87) के अधिकारी और रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) के निजी सचिव श्री राम सुभग सिंह का कार्यकाल 19 अक्टूबर 2006 से 15 नवम्बर 2006 तक की अवधि के लिए और आगे बढ़ाते हैं।

वी. सरस्वती
उप सचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 562, दिनांक 18 अक्टूबर--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारी को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अंतर्गत स्थाई कमीशन में पक्का करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाईकरण

कैप्टन राहुल राय (डीआर-10577एन), 20 अगस्त 2004

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारी को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अंतर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

स्थाईकरण

कैप्टन विशाल शर्मा (डीएस-12089के), 08 फरवरी 2003

कैप्टन गौरव गर्ग (डीएस-12135एन), 09 दिसम्बर 2005

कैप्टन दीपू जैक्कब (डीएस-12148एल), 16 अप्रैल 2005
 कैप्टन रोहित बाहरी (डीएस-12150एच), 19 अप्रैल 2005
 लैफ्टि दीप्तीमान शुक्ला (डीएस-12152एन), 20 अप्रैल 2005
 लैफ्टि कृष्ण कुमार (डीएस-12153डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2005
 लैफ्टि सुनीता (डीएस-12155एफ), 19 मई 2005
 लैफ्टि हर्षवर्धन बी (डीएस-12159एक्स), 25 मई 2005
 लैफ्टि मनीश कुमार (डीएस-12162एक्स), 30 मई 2005
 लैफ्टि आई मुखोपाध्याय (डीएस-12165एल), 04 जून 2005
 लैफ्टि राज कुमार (डीएस-12167डब्ल्यू), 11 जून 2005

डी के तनेजा
 मेजर जनरल
 एडीजीडीएस

सं. 563, दिनांक 12 अक्तूबर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम कैलास चन्द्रा यादव (सं. 14362399ए अब जेसी-269202डब्ल्यू), 25 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार जाधव भास्कर बाबूराव (सं. 14397147एम अब जेसी-269203वाई), 23 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार पृथ्वी पाल (सं. 14475931पी अब जेसी-269204एफ), 27 मई 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 14366113एक्स अब जेसी-269205के), 30 मई 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 14484290पी अब जेसी-269206एम), 30 मई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार आर गनापती (सं. 14491678एच अब जेसी-269207पी), 17 जुलाई 2006/27 अप्रैल 2006*

हवलदार राम निवास जाट (सं. 14480388एल अब जेसी-269208एक्स), 29 मई 2006/28 अप्रैल 2006*

बीएचएम विजय कुमार (सं. 14375524एक्स अब जेसी-269209ए), 30 जून 2006/01 मई 2006*

हवलदार बालेकुन्दरी मारुती (सं. 14398002एन अब जेसी-269210पी), 03 जून 2006/15 मई 2006*

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 15109150वाई अब जेसी-269211एक्स), 05 जून 2006/16 मई 2006*

हवलदार रवीश कुमार (सं. 14476504एल अब जेसी-269212ए), 29 जून 2006/24 मई 2006*

हवलदार अमीन चन्द (सं. 14474776एम अब जेसी-269213एच), 27 जून 2006/01 जून 2006*

हवलदार करपाल सिंह (सं. 14373721एफ अब जेसी-269214एल), 21 जून 2006/01 जून 2006*

बीएचएम मेजर सिंह (सं. 14386547वाई अब जेसी-269215एन), 11 जुलाई 2006/02 जून 2006*

आरएचएम जोगीन्दर सिंह (सं. 14480260ए अब जेसी-269216डब्ल्यू), 15 जुलाई 2006/04 जून 2006*

हवलदार सुरेश एम एस (सं. 14370946वाई अब जेसी-269217वाई), 17 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार पारवेर सिंह (सं. 14379924एफ अब जेसी-269218एफ), 29 जून 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार विन्दाचल सिंह (सं. 14467635पी अब जेसी-269219के), 06 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार हरीनाम सिंह (सं. 14474683एक्स अब जेसी-269220वाई), 22 मई 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 14396825पी अब जेसी-269221एफ), 06 जून 2006/05 फरवरी 2006*

हवलदार महेन्दर कुमार मिश्रा (सं. 14483491एन अब जेसी-269222के), 10 मई 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार रन बहादुर सिंह (सं. 14483107पी अब जेसी-269223एम), 02 जून 2006/01 मार्च 2006*

हवलदार सकिन्दर सिंह (सं. 14368140ए अब जेसी-269224पी), 08 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार रामोतर मेहता (सं. 14483205पी अब जेसी-269225एक्स), 30 मई 2006/01 अप्रैल 2006*

एस जी एच एम. शम्भू प्रसाद (सं. 14368388के अब जेसी-269226ए), 20 जून 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार रनजीत नेयोग (सं. 14354367एच अब जेसी-269227एच), 02 मई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार मृदल चन्द्रा पुक्कन (सं. 14358187एक्स अब जेसी-269228एल), 29 अप्रैल 2006/04 अप्रैल 2006*

हवलदार राम किशन (सं. 14480193ए अब जेसी-269229एन), 02 जून 2006/01 मई 2006*

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14495655वाई अब जेसी-269230एच), 10 जुलाई 2006/01 जून 2006*

हवलदार प्रेम चन्दा तिवारी (सं. 14368188एन अब जेसी-269231एल), 11 जुलाई 2006/01 जून 2006*

हवलदार कुशल पाल (सं. 14398011पी अब जेसी-269232एन), 11 जुलाई 2006/01 जून 2006*

हवलदार श्वेत सिंह रायपुरोहीत (सं. 14480371एक्स अब जेसी-269233डब्ल्यू), 03 जून 2006/01 जून 2006*

हवलदार एस रवी चन्द्रन (सं. 15103367एम अब जेसी-269186के), 24 अप्रैल 2006/15 फरवरी 2006*

हवलदार जाबर सिंह इन्दा (सं. 14485493एल अब जेसी-269187एम), 07 मई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार नाभा किशोर साहू (सं. 14499985पी अब जेसी-269188पी), 03 मई 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार रवी रेड्डी गुदला (सं. 15112986एफ अब जेसी-269189एक्स), 28 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

आरएचएम विपन कुमार (सं. 14415782एच अब जेसी-269190एम), 01 अप्रैल 2006

आरएचएम नरेश कुमार यादन (सं. 14409370एल अब जेसी-269191पी), 28 अप्रैल 2006/12 अप्रैल 2006*

हवलदार इन्दरजीत सिंह (सं. 15108773डब्ल्यू अब जेसी-269192एक्स), 20 मई 2006/01 मई 2006*

आरएचएम अजय कुमार (सं. 14415791के अब जेसी-269193ए), 27 मई 2006/01 मई 2006*

हवलदार कामेश्वर प्रसाद (सं. 14489909पी अब जेसी-269194एच), 08 जून 2006/01 जून 2006*

आरएचएम मदन सिंह (सं. 14409571के अब जेसी-269195एल), 28 जून 2006/23 जून 2006*

आरएचएम गनानाशम्भुन ई. (सं. 15114137वाई अब जेसी-269196एन), 28 जून 2006/23 जून 2006*

आरएचएम इन्दाजीत सिंह (सं. 14405000एन अब जेसी-269197डब्ल्यू), 28 जून 2006/23 जून 2006*

आरएचएम सिंह सनजीब कुमार (सं. 14408403वाई अब जेसी-269198वाई), 03 जुलाई 2006/23 जून 2006*

आरएचएम बलजीत सिंह (सं. 15119547वाई अब जेसी-269199एफ), 05 जुलाई 2006/23 जून 2006*

आरएचएम राजेश कुमार सिंह (सं. 14410302के अब जेसी-269200एल), 28 जून 2006/23 जून 2006*

आरएचएम रनजीत सिंह (सं. 15113430के अब जेसी-269201एन), 29 जून 2006/23 जून 2006*

हवलदार भगीया हेमंत भिका लाल (सं. 14388616एच अब जेसी-269250डब्ल्यू), 25 मई 2006/30 अक्टूबर 2005*

बीएचएम मुस्ती नाथ प्रसाद (सं. 14481326एक्स अब जेसी-269251वाई), 10 मार्च 2006/23 जनवरी 2006*

आरएचएम नरेन्द्रा प्रसाद तिवारी (सं. 14366318एम अब जेसी-269252एफ), 14 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार मुखतार सिंह (सं. 14474713के अब जेसी-269253के), 29 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार यू चन्द्रामनी सिंगा (सं. 14480224पी अब जेसी-269254एम), 29 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 14480109पी अब जेसी-269255पी), 06 मई 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार सप्जन सिंह (सं. 14476097एन अब जेसी-269256एक्स), 16 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार चन्द्रा भूषन पान्डे (सं. 14475566वाई अब जेसी-269257ए), 21 मई 2006/16 फरवरी 2006*

हवलदार जय प्रकाश चन्दर भट्ट (सं. 14490113एल अब जेसी-269258एल), 27 मई 2006/17 मार्च 2006*

हवलदार ए राव (सं. 14349970एफ अब जेसी-269259एल), 01 मई 2006/18 मार्च 2006*

हवलदार पी सुन्दा राजन (सं. 14484346डब्ल्यू अब जेसी-269260ए), 02 मई 2006/19 मार्च 2006*

हवलदार चन्दर भान यादव (सं. 15101099पी अब जेसी-269261एच), 02 जुलाई 2006/04 अप्रैल 2006*

हवलदार कमल किशोर (सं. 14363227एक्स अब जेसी-269262एल), 10 मई 2006/04 अप्रैल 2006*

हवलदार देश राज (सं. 14479094एल अब जेसी-269263एन), 23 मई 2006/17 अप्रैल 2006*

हवलदार ओम चन्द (सं. 14489400एच अब जेसी-269264डब्ल्यू), 01 मई 2005

हवलदार हरीन्दर प्रसाद यादव (सं. 14397811एफ अब जेसी-269265वाई), 01 जून 2006

बीएचएम विश्वनाथ पन्डा (सं. 14481172डब्ल्यू अब जेसी-269144एक्स), 27 अक्टूबर 2005

हवलदार राम किशन सैनी (सं. 14371514डब्ल्यू अब जेसी-269145ए), 09 नवम्बर 2005/05 अगस्त 2005*

बीएचएम अशोक पतलाना शेतली (सं. 14491602एच अब जेसी-269146एच), 17 मार्च 2006/06 दिसम्बर 2005*

हवलदार अरधी उमापथी (सं. 14393955एम अब जेसी-269147एल), 01 अप्रैल 2006/21 नवम्बर 2005*

बीएचएम विजय बहादुर (सं. 14476478पी अब जेसी-269148एल), 28 अप्रैल 2006/30 नवम्बर 2005*

हवलदार डांगे रमेश चन्द्रभान (सं. 14397899डब्ल्यू अब जेसी-269149डब्ल्यू), 15 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार जगन्नाथन बी (सं. 15109811एन अब जेसी-269150एल), 10 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार बिर चन्द्रा सिन्हा (सं. 14362921एक्स अब जेसी-269151एन), 13 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार रिशाल सिंह (सं. 14372743एन अब जेसी-269152डब्ल्यू), 31 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

आरएचएम चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह (सं. 14495577एम अब जेसी-269153वाई), 20 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम राकेश पान्डे (सं. 14363887पी अब जेसी-269154एफ), 13 मार्च 2006/28 फरवरी 2006 *

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 14482935एन अब जेसी-269155के), 01 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार हवा सिंह (सं. 14474582के अब जेसी-269156एम), 14 मई 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार सुरेश बाबू जी (सं. 14490100एन अब जेसी-269157पी), 24 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

बीएचएम संतोष कुमार महतो (सं. 14487066एन अब जेसी-269158एक्स), 24 अप्रैल 2006/28 मार्च 2006 *

हवलदार सुरेन्द्र (सं. 14480548ए अब जेसी-269159ए), 04 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मोहनन पी (सं. 14369498एल अब जेसी-299609एफ), 01 अगस्त 2006

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 14369880एफ अब जेसी-299610डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

हवलदार सुखचैन सिंह (सं. 14489290वाई अब जेसी-299611वाई), 01 अगस्त 2006

हवलदार राजा रथीनम ए पी (सं. 15101002वाई अब जेसी-299612एफ), 01 अगस्त 2006

हवलदार मोहन चन्द्र भट्ट (सं. 15101432एच अब जेसी-299613के), 01 अगस्त 2006

हवलदार अवतार सिंह (सं. 14386307एफ अब जेसी-299614एम), 15 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार दिलीप सिंह (सं. 1572477के अब जेसी-299615पी), 10 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार सुरेश चंदर ढिल्लों (सं. 14361273एन अब जेसी-299616एक्स), 01 अगस्त 2006/01 अप्रैल 2006 *

आरएचएम महातीम सिंह यादव (सं. 14366648एल अब जेसी-299617ए), 01 जून 2006

हवलदार साजी वर्धीस (सं. 14367566पी अब जेसी-299618एच), 18 जुलाई 2006/01 जून 2006 *

बीएचएम अमरीक सिंह (सं. 14379668एक्स अब जेसी-299619एल), 15 जुलाई 2006/02 जून 2006 *

टीएचएम बी श्रीकुमारन नायर (सं. 14381049एच अब जेसी-299620ए), 01 जुलाई 2006

बीएचएम पुरुषोत्तम चंद (सं. 14367349वाई अब जेसी-299621एच), 12 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 *

बीएचएम लल्लू प्रसाद द्विवेदी (सं. 14364364एच अब जेसी-299622एल), 01 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार महेश ए एस (सं. 14378605एच अब जेसी-299623एन), 01 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006 *

बीएचएम हरीश चन्द्र त्रिपाठी (सं. 14371280एक्स अब जेसी-299624डब्ल्यू), 04 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार कृष्णा नन्दन पाण्डे (सं. 14368051एफ अब जेसी-299625वाई), 12 अगस्त 2006/14 जुलाई 2006 *

हवलदार निलामनी सिंघा (सं. 14365031एच अब जेसी-299626एफ), 01 अगस्त 2006

आरएचएम अनूप कुमार (सं. 14377371एक्स अब जेसी-299627के), 01 अगस्त 2006

बीएचएम शैताना राम (सं. 14475242एन अब जेसी-299628एम), 01 अगस्त 2006

बीएचएम अजबराव मानिक राव करडे (सं. 14360608एन अब जेसी-299629पी), 01 अगस्त 2006

हवलदार मुनेश्वर कुमार चौधरी (सं. 14386425पी अब जेसी-299630के), 01 अगस्त 2006

हवलदार अन्नपा रेड्डी एस आर एम रेड्डी (सं. 14387460के अब जेसी-299631एम), 01 अगस्त 2006

हवलदार रमेश सिंह (सं. 14366508वाई अब जेसी-299632पी), 09 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एस. पी. शर्मा
अवर सचिव

सं. 564, दिनांक 17 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या और पदोन्नति की तिथि

मेजर सज्जन सिंह (एनटीआर-16551पी), 16 दिसम्बर 2004

मेजर मोहनन एन (एनटीआर-16630के), 16 दिसम्बर 2004

मेजर फेरो डम्पल परेरा (एनटीआर-16569पी), 16 दिसम्बर 2004

मेजर हंस राज (एनटीआर-16569एल), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान पुतुर संजवी रेड्डी (एनटीआर-16637एन), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान एम जी पल्लानी (एनटीआर-16679ए), 11 अप्रैल 2006

कप्तान अजय कुमार शर्मा (एनटीआर-16668एन), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान सायमन पी एल (एनटीआर-16672डब्ल्यू), 11 अप्रैल 2006

कप्तान राजेश चन्द्रा (एनटीआर 16674एफ), 11 अप्रैल 2006

कप्तान डी एस चव्हाण (एनटीआर-16675के), 11 अप्रैल 2006

कप्तान विजय कुमार (एनटीआर-16677पी), 11 अप्रैल 2006

कप्तान टी जी सिंह (एनटीआर-16680पी), 11 अप्रैल 2006

कप्तान दिवान सिंह (एनटीआर-16707एफ), 11 अप्रैल 2006

कप्तान चन्द्रा भान (एनटीआर-16708के), 11 अप्रैल 2006

कप्तान के एन रेड्डी (एनटीआर-16671एन), 19 अप्रैल 2005

कप्तान वर्की वी एस (एनटीआर-16667एल), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान के एन नायडु (एनटीआर-16669डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2005

कप्तान अनल कान्ती करमाकर (एनटीआर-16644के), 16 दिसम्बर 2004

कप्तान दिवान सिंह (एनटीआर-16676एम), 11 अप्रैल 2006

कप्तान एन महाबीर सिंह (एनटीआर-16678एक्स), 11 अप्रैल 2006

अल्पकालीन सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान शुभाशीष चिराकल्याण पात्रा (एमएस-14170पी), 13 मार्च 2005

कप्तान राजकुमार चौबे (एमएस-14428एक्स), 30 जुलाई 2005

कप्तान रुविथ कुमार (एमएस-14299एच), 21 जनवरी 2006

कप्तान बरनाली मुखोपाध्याय (एमएस-14303ए), 21 जनवरी 2006

कप्तान नैखरीत्यून्यो लिन्यू (एमएस-14333एक्स), 21 जनवरी 2006

कप्तान रूमिका यादव (एमएस-14380पी), 21 जनवरी 2006

कप्तान दिप्ती परिहार (एमएस-14386डब्ल्यू), 21 जनवरी 2006

कप्तान पार्थो सारथी रॉय (एमएस-14426एम), 21 जनवरी 2006

कप्तान शिवा कुमार हिरेमथ (एमएस-14442के), 21 जनवरी 2006

कप्तान यशवन्था शेनोई बी (एमएस-14443एम), 21 जनवरी 2006

कप्तान पी रामाकृष्णा प्रसाद (एमएस-14416एच), 04 फरवरी 2006

कप्तान नियति ऐरन (एमएस-14431एक्स), 06 फरवरी 2006

कप्तान देविन्द्र बीर सिंह (एमएस-14119पी), 05 जनवरी 2005

कप्तान माने सचिन शिवाजी (एमएस-14112एल), 17 जनवरी 2005

कप्तान राजीव कुमार त्रिपाठी (एमएस-14229के), 12 मार्च 2005

कप्तान (कु.) अंशु महाजन (एमएस-14252एक्स), 28 अगस्त 2005

कप्तान हरभजन सिंह नाट्टी (एमएस-14408के), 27 सितम्बर 2005

कप्तान निशान्त कुमार (एमएस-14271एच), 21 जनवरी 2006

कप्तान रविन्द्र कौर ओबराय (एमएस-14278एम), 21 जनवरी 2006

कप्तान नरेन्द्र पॉल (एमएस-14291डब्ल्यू), 21 जनवरी 2006

कप्तान मेन्दु अवन्थी (एमएस-14298ए), 21 जनवरी 2006

कप्तान जितेन्द्र कुमार शर्मा (एमएस-14317ए), 21 जनवरी 2006

कप्तान आर इलांगोवन (एमएस-14441एफ), 19 जनवरी 2006

कप्तान (श्रीमती) शिखा गर्ग (एमएस-14313के), 21 जनवरी 2006

कप्तान बबली सिंह (एमएस-14319एल), 21 जनवरी 2006

कप्तान हरगुरजीत सिंह (एमएस-14342वाई), 21 जनवरी 2006

कप्तान खेमकर पूरबी निलेश (एमएस-14343एफ), 21 जनवरी 2006

कप्तान अजय शर्मा (एमएस-14422डब्ल्यू), 21 जनवरी 2006

कप्तान परमबीर सिंह सोनी (एमएस-14347एक्स), 29 जनवरी 2006

कप्तान विकास माथुर (एमएस-14429ए), 31 जनवरी 2006

कप्तान पर्थ्या प्रतिम सिंघा (एमएस-14430पी), 05 फरवरी 2006

कप्तान बलविंदर सिंह (एमएस-14351ए), 19 फरवरी 2006
 कप्तान पंकज अजीत चावला (एमएस-14353एल), 22 फरवरी 2006
 कप्तान शालनी गुप्ता (एमएस-14305एल), 25 फरवरी 2006
 कप्तान (श्रीमती) शबोना तंवर (एमएस-14359एम), 28 फरवरी 2006
 कप्तान मोहन सिंह ड्युपा (एमएस-14400एक्स), 01 मार्च 2006
 कप्तान शिवानंद अक्की (एमएस-14362एम), 06 मार्च 2006
 कप्तान अरादया एच वी (एमएस-14403एल), 06 मार्च 2006
 कप्तान दिलदीप कौर गिल (एमएस-14400एक्स), 07 मार्च 2006
 कप्तान अशोक कुमार (एमएस-14453डब्ल्यू), 08 मार्च 2006
 कप्तान अमनप्रीत (एमएस-14405डब्ल्यू), 15 मार्च 2006
 कप्तान कंवल जीत कौर (एमएस-14484डब्ल्यू), 19 जून 2003
 कप्तान (कु.) मीना जटवेन्दू (एमएस-14459एक्स), 19 दिसम्बर 2003
 कप्तान बीना एम एस (एमएस-14402एच), 01 मार्च 2006
 कप्तान दीपक प्रभाकर वर्मा (एमएस-14363पी), 06 मार्च 2006
 कप्तान मुकुल साहू (एमएस-14437वाई), 15 मार्च 2006
 कप्तान रूपेश एम (एमएस-14412एम), 01 अप्रैल 2006

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर-तकनीकी)

कप्तान के पद पर

लेफ्टि वकी वी एस (एनटीआर-16667एन), 07 अप्रैल 2004
 लेफ्टि के एन नायडू (एनटीआर-16669डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि के एन रेड्डी (एनटीआर-16671एन), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि मनोज के वी (एनटीआर-16703एल), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि शेख जमीर अहमद (एनटीआर-16705डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि एस रमेश (एनटीआर-16706वाई), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि गुलाम नबी भट्ट (एनटीआर-16696ए), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि जमुना प्रसाद (एनटीआर-16698एल), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि जय प्रकाश सिंह (एनटीआर-16699एन), 02 अप्रैल 2006

स्थायी कमीशन/अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर

कप्तान एम जी पलानी (एनटीआर-16679ए), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि टी जी सिंह (एनटीआर-16680पी), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि योगेश एच वी (एनटीएस-17462एच), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि अनिल कुमार (एनटीआर-16688एफ), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि जसविन्दर सिंह (एनटीआर-16685एन), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि अलेक्जेंडर के टी (एनटीआर-16709एम), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि हेमन्त कुमार त्रिपाठी (एनटीआर-16687वाई), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि वरुण श्रीवास्तव (एनटीएस-17471के), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि ए सुकुमार (एनटीएस-17468के), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि शिन्दे राजकुमार ज्ञानदेव (एनटीएस-17467एफ), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि बगधि चन्द्र शेखर राव (एनटीएस-174664एन), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि वाई लक्ष्मी नारायण रेड्डी (एनटीआर-16692के), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि सतिश कुमार (एनटीआर-16693एम), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि ओम प्रकाश नयन (एनटीएस-17481एन), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि पलानीवेल आर (एनटीएस-17477एल), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि सुशिल सिंह (एनटीएस-17475ए), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि राजु पी (एनटीएस-17472एम), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि बलराम तिवारी (एनटीआर-16691एफ), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि प्रसन्नन पिल्ले बी (एनटीएस-17474एक्स), 16 दिसम्बर 2004

लेफ्टि गोकर्ण सिंह (एनटीएस-17483वाई), 19 मई 2005

लेफ्टि शर्मा सतीश सीताराम (एनटीआर-16695एक्स), 19 मई 2005

लेफ्टि मधु के (एनटीएस-17484एफ), 19 मई 2005

लेफ्टि राज कुमार (एनटीआर-16701ए), 2 अप्रैल 2006

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर-तकनीकी)

लेफ्टि से कप्तान के पद पर

लेफ्टि राकेश कुमार (एनटीएस-17490पी), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि बीर सिंह (एनटीएस-17491एक्स), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि पद्मा लोचन होठा (एनटीएस-17503एफ), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि ए सरवरनन (एनटीएस-17494एन), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि जयकिशनन एम (एनटीएस-17487पी), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि ओम प्रकाश बिश्नोई (एनटीएस-17489ए), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि प्रवीण सिंह (एनटीएस-17492ए), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि तेजवीर (एनटीएस-17493एच), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि रविन्दर कुमार शर्मा (एनटीएस-17494एल), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि मधुसुदनन पी (एनटीएस-17496डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि श्री मनोजकुमार अग्निहोत्री (एनटीएस-17498एफ), 02 अप्रैल 2006

लेफ्टि राजेश कुमार (एनटीएस-17499के), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि मुरली दास आर (एनटीएस-17500एन), 02 अप्रैल 2006
 लेफ्टि राजेश आर (एनटीएस-17502वाई), 02 अप्रैल 2006

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर-तकनीकी)

कप्तान के पद पर

लेफ्टि अजमेर सिंह (एनटीएस-17461ए), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि अण्णाप्पा नारायण शेठ (एनटीएस-17463एल), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि जी ब्रनाबास (एनटीएस-17466वाई), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि बी चिन्ना ओम प्रकाश (एनटीएस-17469एम), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि लकपा यलमु (एनटीएस-17473पी), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि भूपेश कुमार (एनटीएस-17476एच), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि ब्रिजमन चन्द (एनटीएस-17479डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि रेनियल डेनिस थंगव्यु (एनटीएस-17480एल), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि जामलाल गुट्टी (एनटीएस-17482डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2004
 लेफ्टि संजीव कुमार (एनटीएस-17485के), 19 मई 2005
 लेफ्टि अरुण कुमार गुप्ता (एनटीएस-17486एम), 19 मई 2005

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमाण्डर के पद पर

सर्जन लेफ्टि चन्द्र किरन रेडनम (एमएस-14263एक्स/75763एन),
 03 जुलाई 2005
 सर्जन लेफ्टि लौबसंग डॉनडूप (एमएस-14280के/75774एन),
 21 जनवरी 2006
 सर्जन लेफ्टि अय्याप्पन पी (एमएस-14296पी/75776टी),
 21 जनवरी 2006

सर्जन लेफ्टि विशाल पी (एमएस-14327के/75786आर), 21 जनवरी 2006

सर्जन लेफ्टि प्रशान्त रायसद (एमएस-14328एम/75794एच),
 21 जनवरी 2006

सर्जन लेफ्टि प्रसेनजीत पांडा (एमएस-14379ए/75789वाई),
 21 जनवरी 2006
 सर्जन लेफ्टि निलोत्पल मित्रा (एमएस-14194वाई/75737बी),
 12 जुलाई 2004
 सर्जन लेफ्टि निरंजन साहू (एमएस-14312एफ/75770बी),
 21 जनवरी 2006
 सर्जन लेफ्टि के अनंथ किनि (एमएस-14393एम/75796एन),
 18 फरवरी 2006
 सर्जन लेफ्टि जयंत दास (एमएस-14361के/75800वाई), 01 मार्च 2006

फ्ला लेफ्टि से स्ववाइन लीडर के पद पर

फ्ला लेफ्टि मधु जी (एमएस-14314एम/एफ-26501एस),
 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि गोपीनाथन एस (एमएस-14318एच/एफ-26492बी),
 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि तामिलमणी ए जे (एमएस-14338डब्ल्यू/एफ-26490आर), 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि मोहम्मद महबूब पाशा एस (एमएस-14381एक्स/एफ-26500एन), 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि शालिनी जैन (एमएस-14418एन/एफ-26482एस),
 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि नेहा नन्दल (एमएस-14423वाई/एफ-26488टी),
 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि शैलजा यजदानी (एमएस-14292वाई/एफ-26497ए),
 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि सत्यजीत पाटि (एमएस-14635के/एफ-26485एच),
 21 जनवरी 2006
 फ्ला लेफ्टि श्रीनिवास प्रभू एम (एमएस-14658एल/एफ-26903एल), 12 मार्च 2006
 फ्ला लेफ्टि पल्लवी गोस्वामी (एमएस-14301पी/एफ-26498एफ),
 21 जनवरी 2003

राजेश कामरान
 ब्रिग

डिप्टी डीजीएफएमएस (प्रशा.)

सं. 565, दिनांक 16 अक्टूबर 2006—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एस एल)

कप्तान से मेजर

एस एल नं., नाम और आर्म्स

04117 सुरेश कुमार, एसएल क्यू एम

46020 अजय सिंह इन्फैन्ट्री
 40267 वी के परदेशी, इंजीनियर
 41680 अशोक अल्वे, इन्फैन्ट्री
 47041 शरद बिक्रम सिंह मैक इन्फैन्ट्री
 48352 राजीव कुमार छिब्बर, इन्फैन्ट्री
 49572 हरप्रीत सिंह, एओसी
 50696 संजय हुड्डा, इंजी.

16 दिसम्बर 2004

59600 दिग्विजय सिंह, एसी
 59601 चन्द्र विजय सिंह मनकोटिया, मैक इन्फैन्ट्री
 59603 राहुल फौजदार, इन्फैन्ट्री
 59604 बलकार सिंह, इन्फैन्ट्री
 59605 गुरकिरण पाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 596606 मनजोत सिंह गिल, आर्टी
 59607 अवनिश मलिक, ईएमई
 59608 अभिजीत चन्द्रकान्त तेम्बे, इन्फैन्ट्री
 59609 रितुन्व्य बहुगुणा, आर्टी
 59610 शरदुल चन्द्र भट्टनागर, एएडी
 59611 अमनदीप जैन, इंजीनियर्स
 59612 रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री
 59613 अनु शर्मा, सिग्नल्स
 59614 सचिन्द्र जोशी, इन्फैन्ट्री
 59615 हरसिमरन सिंह, एओसी
 59617 जगजोत सिंह, इन्फैन्ट्री
 59618 पारितोष काला, इन्फैन्ट्री
 59619 प्रत्युष कुमार, इन्फैन्ट्री
 59620 अशोक विष्ट, सिग्नल्स
 59621 गौरव बत्रा, इन्फैन्ट्री
 59622 आदित्य यादव, एएससी
 59623 नितिन यादव, आर्टी
 59624 जनेश मलहोत्रा, इन्ट,
 59625 नीरज कार्की, इंजीनियर्स
 59626 धीरज कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 59627 परमिन्दर कुमार चौहान, एओसी
 59628 विशाल बलोरिया, एएससी

59629 अमरदीप सिंह, आर्टी
 59630 अमित आस्कर फर्नांडीज, इन्फैन्ट्री
 59631 अमित कुमार, आर्टी
 59632 राजेश बरसैन, इन्फैन्ट्री
 59633 बिक्रम मोहन, एसी
 59634 शशि कान्त थुम्मा, आर्टी
 59635 आयुष्मान भाभा पाढ़ि, आर्टी
 59637 विनित पन्त, एएडी
 59638 महादिक सचिन शंकर, इन्फैन्ट्री
 59639 लेनिन कोशी, आर्टी
 59640 अंकुर महेश्वरी, आर्टी
 59641 अजय शर्मा, एओसी
 59642 पुनीत खरबन्दा, इन्ट
 59643 अभिषेक पटनाईक, इन्फैन्ट्री
 59644 अशोक, इन्फैन्ट्री
 59645 इन्द्रनिल धर, इन्फैन्ट्री
 59646 अभिषेक शर्मा, एएससी
 59647 चेतनवा पांडे, ईएनई
 59648 प्रणव प्रसून, इन्फैन्ट्री
 59649 श्याम देव वत्स, एसी
 59650 अमनदीप सिंगला, आर्टी
 59651 सुधीर बालयान, इन्फैन्ट्री
 59652 देवेन्द्र रमेश जयदेवकर, आर्टी
 59655 प्रवीन लटवाल, ईएमई
 59656 रोहित देवरानी, आर्टी
 59657 सूरज चम्बयाल, इन्फैन्ट्री
 59658 चन्द्रनील, इन्फैन्ट्री
 59659 हरीश रमन, आर्टी
 59660 अंकुश छिब्बर, एएससी
 59661 जसविन्दर सिंह वोहरा, इंजीनियर्स
 59662 उदय विजय एगाने, इन्फैन्ट्री
 59663 अमित कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
 59664 संजीव कुमार, आर्टी
 59665 अमित अहलावत, एसी

- 59666 प्रणीत डंगवाल, इन्फैन्ट्री
 59667 सूरजभान, आर्टी
 59668 अंकुश नाम्बिसन, आर्टी
 59669 देवदत्त, ईन्ट
 59670 प्रणव कुमार दास, मैक इन्फैन्ट्री
 59671 तजेन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री
 59672 सौवीर नौटियाल, एसी
 59673 मंजीत सिंह सिद्धू, एएससी
 59674 अशोक पालिथ अचूथन, इन्फैन्ट्री
 59675 महिम कुमार, इन्फैन्ट्री
 59676 सिद्धेन्द्र सिंह पंवार, सिंगनल्स
 59677 गोवर्धन गोपाल गुडुर, इन्फैन्ट्री
 59678 निलब्जा पॉल, एएससी
 59679 जॉन मेथ्यू, सिंगनल्स
 59680 मुकुल पायल, एएडी
 59681 एस नागालडि कार्तिकेयन, इन्फैन्ट्री
 59682 रवि राठौर, एसी
 59683 प्रमन चन्द दुबे, एएडी
 59684 सुदीप माजी, इन्फैन्ट्री
 59685 कपिल अरोड़ा, इन्फैन्ट्री
 59686 प्रशांत पंत, आर्टी
 59687 रोहित सिंह, आर्टी
 59688 एस स्वर्ण बाबू, इंजीनियर्स
 59689 अमित विष्ट, इन्फैन्ट्री
 59690 अर्जुन प्रताप सिंह छब्बाए, आर्टी
 59691 अर्जुन प्रताप सिंह छब्बा, आर्टी
 59691 राजू प्रधान, इंजीनियर्स
 59692 मिथुन आर शेटी, इन्फैन्ट्री
 59693 ज्योतिषमान हजारिका, इन्फैन्ट्री
 59694 राजेश कुमार, एओसी
 59695 प्रशांत विष्ट, इंजीनियर्स
 59696 वर्मा अमित अशोक कुमार, आर्टी
 59698 राकेश कुमार आनन्द, इन्फैन्ट्री
 59699 बिजू ई के, एओसी
 59700 मानस सदानन्द दिक्षित, इन्फैन्ट्री
 59701 नीरज मान, ईएमई
 59702 समीर एन पार्वतीकर, इन्फैन्ट्री
 59703 तुपुरानी सरत, इन्फैन्ट्री
 59704 गौरव शुक्ला, इन्फैन्ट्री
 59705 समीर मोहन, एओसी
 59706 वेकंट कृष्णम राजू, इंजीनियर्स
 59707 निशांत चन्देल, इन्फैन्ट्री
 59708 अमित प्रियव्रत, मैक इन्फैन्ट्री
 59709 राम प्रताप सिंहए एएससी
 59710 सतीश कुमार वी एन, आर्टी
 59711 विकेश कुमार, आर्टी
 59712 अमित सिंह तोमर, आर्टी
 59713 विपुल हर्ष, आर्टी
 59714 संजय कुमार चौधरी, सिंगनल्स
 59715 शाजी पी, इन्फैन्ट्री
 59716 विशाल रावत, आर्टी
 59717 अनिल कुमार के, ईएमई
 59718 कवूरू भानू प्रकाश, इन्फैन्ट्री
 59719 पुनीत शर्मा, इन्फैन्ट्री
 59720 जिविमन पी ए, ईएमई
 59721 अजय कृष्ण अडवाणी, इन्फैन्ट्री
 59724 रिजवान खान, आर्टी
 59725 रतुल कपूर, मैक इन्फैन्ट्री
 59726 सुरजीत राय, इंजीनियर्स
 59727 मृदुल कुमार शर्मा, आर्टी
 59728 संदीप सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 59729 हर कंवर सिंह, एएडी
 59730 के अर्चन एन्ड्रूज, इन्फैन्ट्री
 59731 शिद्ध रमैया एस पुजार, ईन्ट
 59732 श्रीकार अशोक पिल्ले, इन्फैन्ट्री
 59733 सुमीत सिंह मक्कर, इंजी.
 59734 नितेन मेहता, ईएमई
 59735 नितेश सिंह जसवाल, इन्फैन्ट्री
 59736 रमन दीप सिंह बुट्टार, आर्टी

59738 श्रीराम एस, इन्फैन्ट्री	59775 शलेश चतुर्वेदी, एएडी
59739 सुल्तान सिंह, एएससी	59776 संजीव सरीन, आर्टी
59741 अमन ओबराय, एसी	59777 वैभव काला, ईएमई
59743 राकेश मोहन कांसवाल, इन्फैन्ट्री	59778 मोहित ग्रोवर, आर्टी
59744 नवदीप सिंह, एएससी	59779 मुर्तजा अली असद, इन्फैन्ट्री
59745 अमित त्यागी, इन्फैन्ट्री	59780 कन्दनुरू वेंकट शिवरामा गोपी, एओसी
59746 नितिन शर्मा, इन्फैन्ट्री	59781 सुरेश पाल सिंह, आर्टी
59747 मोहित यादव, मैक इन्फैन्ट्री	59782 सुभाष चन्द्र, एओसी
59748 अभिनव नवनीत, इन्फैन्ट्री	59783 नवीन डी प्रभु, इन्फैन्ट्री
59749 अमित भारद्वाज, एसी	59784 सौरभ मैथानी, आर्टी
59750 संजीव कुमार शाही, एएडी	59785 राजेश ध्यानी, इन्फैन्ट्री
59751 पुनीत जसवाल, इन्फैन्ट्री	59786 डामले स्वानन्द मनोहर, ईन्ट
59752 अतुल चवान, इन्फैन्ट्री	59787 अनूप कुमार, इन्फैन्ट्री
59753 रंजीत सिंह संन्धु, आर्टी	59788 मोहित भनोट, आर्टी
59754 दीपक पटियाल, एओसी	59789 ओमर सूचिल पथारे, इन्फैन्ट्री
59755 अंशुमन बडोनी, एसी	59790 यतेन्द्र सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
59756 अश्विल कुमार, एसी	59791 विक्रम रैना, इन्फैन्ट्री
59757 अच्युत प्रसाद गोस्वामी, एएडी	59792 विशाल गौरव, एएससी
59759 विक्रम अशीश रस्तोगी, इन्फैन्ट्री	59793 अविनाश शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री
59760 सरवैया हिरथ बी, इन्फैन्ट्री	59794 सुरेन्द्र सिंह, एओसी
59761 मुकेश पांडे, इन्फैन्ट्री	59795 अभिषेक अनिरूधा, एएडी
59762 दीपक वेंकटेशवरन, इन्फैन्ट्री	59796 एबरीश जी मेनन, आर्टी
59763 उपाध्याय शशी भूषण एस एन, आर्टी	59797 क्यूम खान, एएससी
59764 अमरदीप सिंह, एएडी	59798 अशीश सामन्तरे, आर्टी
59765 चिन्नप्पन डी, इंजीनियर्स	59799 लखविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
59766 सोरभ सेठी, सिग्नल्स	59800 सोनल जैन, इन्फैन्ट्री
59767 यशपाल विष्ट, आर्टी	59801 निखिलेश कुमार भण्डारी, इन्फैन्ट्री
59768 विनय जसरोटिया, इन्फैन्ट्री	59802 अमित कुमार राय, एएससी
59769 एस मगेन्द्रन, एएससी	59803 ईश्वर सिंह भाटी, एसी
59770 महेश सिंह पंवार, इन्फैन्ट्री	59804 सन्देश गोविन्द खेडकर, इन्फैन्ट्री
59771 महेसर सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री	59805 गौरव राठी, इन्फैन्ट्री
59772 सुमित कपूर, मैक इन्फैन्ट्री	59806 अभिषेक कुलश्रेष्ठ, इन्फैन्ट्री
59773 विराज भुवरा, इन्फैन्ट्री	59807 विमिन जायग, ईएमई
59774 अजय कुमार, इन्फैन्ट्री	59808 अजय कुमार सिंह, आर्टी

59809 सन्देश सिंह, इन्फैन्ट्री	59846 सौरव चट्टोपाध्याय, इन्फैन्ट्री
59810 प्रकाश कुमार पाती, एसी	59847 जय प्रकाश सिंह, आर्टी
59811 फुर्रेलातप गुणबन्ता शर्मा, एएडी	59848 अजय कुमार उपाध्याय, एएससी
59813 अशोक कुमार राठी, इन्फैन्ट्री	59849 टी एन उन्नीकृष्णन, इन्फैन्ट्री
59814 अजीत कुमार, आर्टी	59851 जी एस अशोक, आर्टी
59815 लछ्मन सिंह तंवर, आर्टी	59852 अभितेश सिन्हा, एएडी
59816 भवनीश शर्मा, इन्फैन्ट्री	59853 कृष्ण बेलकुड, इन्फैन्ट्री
59817 तरूण सांसरिया, एएडी	59854 राजेश्वर सिंह कुशवाहा, आर्टी
59819 देवानन्द सिंह, आर्टी	59855 संदीप आजाद, इन्फैन्ट्री
59820 विवेक सनवाल, इन्फैन्ट्री	59856 नवीन कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
59821 विनीत जैसवाल, इन्फैन्ट्री	59857 नरेश कुमार, मैक इन्फैन्ट्री
59822 दीपक कुमार, एएससी	59858 रविन्द्र डी धुरी, इंजीनियर्स
59823 हरतेज पाल सिंह, सिग्नल्स	59859 अमित सिंह, ईएमई
59824 रंजीव सिंह पटियाल, इन्फैन्ट्री	59860 रोहित सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
59825 रजत त्यागी, इन्फैन्ट्री	59861 सब दीप सिंह मंडेर, एओसी
59826 हिमान्यु सूर्यवंशी, ईएमई	59862 सर्वेश सिंह, आर्टी
59827 सूर्य विक्रम सिंह राणा, एसी	59863 वीरभद्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
59829 विनीत गोयल, आर्टी	59864 प्रसन कुमार सक्सेना, आर्टी
59830 सुरेन्द्र पाल सिंह, एएससी	59865 विभूदत्ता आचार्य, ईएमई
59831 सूरज पी एस सलारिया, इन्फैन्ट्री	59866 राजविन्द्र सिंह भिंडर, एसी
59832 वगंखेमायुम संजीव सिंह, एओसी	59867 पियूष कुमार गुप्ता, इंजीनियर्स
59833 अनुज देव, आर्टी	59868 हरिनन्दन जोशी, इन्फैन्ट्री
59834 अमित कुणाल विल्सन, एओसी	59869 मंडिया जयाराभि रेड्डी, इन्फैन्ट्री
59835 मुदित पुरोहित, ईएमई	59870 मौली शंकर रॉय, इन्फैन्ट्री
59836 हर्ष कुमार एस चौहान, इन्फैन्ट्री	59871 राकेश, एएडी
59837 रिपेन पठानिया, एसी	59872 राजेश कुमार मिश्रा, एओसी
59838 चिनमय वर्मा, इन्फैन्ट्री	59873 संजीव शर्मा, , इन्फैन्ट्री
59839 विनीत मदान, सिग्नल्स	59874 मानस मिश्रा, सिग्नल्स
59840 प्रमोद कुमार, आर्टी	59875 गजेन्द्र बिष्ट, इन्फैन्ट्री
59841 कोंडे अमोल कृष्ण, इन्फैन्ट्री	59876 प्रवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
59842 नरेन्द्र बहादुर सिंह, आर्टी	59877 अरविन्द कुमार, एएससी
59843 खुशामिन्दर सिंह, एसी	59878 उज्जवलित राज, एएससी
59844 रोहित अशोक पटवर्धन, इन्फैन्ट्री	59879 अभिनव कुमार, आर्टी
59845 वैद्य अश्विन कमलाकर, इन्फैन्ट्री	59880 विदुर जी शर्मा, इन्फैन्ट्री

59881 अनिल कुमार ए, आर्टी	59918 जयवीर सिंह बन्सीवाल, आर्टी
59883 उदय वाना नायक, इन्फैन्ट्री	59919 आर जितेन्द्र, ईएमई
59884 जाधव सम्पत राव दत्तासाहेब, आर्टी	59920 देवस्थली प्रसाद सुधीर, ईन्ट
59885 अमित चौधरी, इन्फैन्ट्री	59921 राजीव लोहानी, इंजीनियर्स
59886 नीरज नैथानी, एसी	59922 अनिन्दय बन्धोपाध्याय, इन्फैन्ट्री
59887 राकेश यादव, एएससी	59923 कमल पांडे, इन्फैन्ट्री
59889 संकल्प पांडे, एएससी	59924 नितिन श्रेष्ठ, इन्फैन्ट्री
59890 गौतम भल्ला, एएससी	59925 रजनीश दुसेजा, इन्फैन्ट्री
59891 अशीष चौधरी, इन्फैन्ट्री	59927 आशुतोष प्रताप सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
59892 विवेक मूर्ति, आर्टी	59928 प्रियजीत सुर, आर्टी
59893 सुमित शर्मा, आर्टी	59929 रूद्रनील दास शर्मा, इन्फैन्ट्री
59894 राजीव राजन सिंह, इन्फैन्ट्री	59930 विजय कुमार शर्मा, ईन्ट
59895 चंचल सिंह कपकोटि, सिग्नल्स	59931 सुरेश नारायणन, इन्फैन्ट्री
59896 राहुल बनर्जी, आर्टी	59932 सुनील कुमार, इंजीनियर्स
59897 अजय गर्ग, इंजीनियर्स	59933 येंगबम किरण मैतेई, इन्फैन्ट्री
59898 लिट्टन धर, इन्फैन्ट्री	59934 अनुराग मलहोत्रा, एएससी
59899 अमर रूग्गे, मैक इन्फैन्ट्री	59935 सशांक शेखर, एओसी
59900 गिरिश भारद्वाज, इन्फैन्ट्री	59937 संजय जुयाल, आर्टी
59901 सान्तनु द्वास, सिग्नल्स	59938 प्राजंल भार्गव, इन्फैन्ट्री
59902 विक्रम राणा, इन्फैन्ट्री	59939 प्रताप रजनीश, इन्फैन्ट्री
59903 तनवीर बुट्टार, आर्टी	59940 अभिनव शर्मा, इन्फैन्ट्री
59904 सुबोध शुक्ला, एएडी	59941 रविन्द्र नाथ भंडारी, सिग्नल्स
59905 अर्जुन पराशर, एसी	59942 देवेन्द्र उपाध्याय, आर्टी
59906 राजीव सिन्हा, इन्फैन्ट्री	59943 शरद शरन, इन्फैन्ट्री
59908 अनुराग शर्मा, इन्फैन्ट्री	59944 अश्वनी कुमार, इन्फैन्ट्री
59909 नितिन, आर्टी	59946 अशविन पटवर्धन, आर्टी
59910 बोबिली अमरनाथ, ईएमई	59947 अजीत कुमार एन, इन्फैन्ट्री
59911 कर्मवीर सिंह तंवर, इन्फैन्ट्री	59948 ब्रजेश कुमार, एएससी
59912 अरुण मलिक, एओसी	59949 कार्तिक सोधी, आर्टी
59913 उदय शंकर ठाकुर, इन्फैन्ट्री	59950 सुमीत वालिया, एओसी
59914 अमित सेठी, एएडी	59951 अरुण कुमार शर्मा, एएससी
59915 दीपक डोबरियाल, एएससी	59952 ऋषि शर्मा, इन्फैन्ट्री
59916 मनिकयम भट्टेश कुमार गुप्ता, आर्टी	59953 सन्तोष सोपान मोरे, मैक इन्फैन्ट्री
59917 कुणाल वत्स त्यागी, एसी	59954 राजेश कुमार साहा, आर्टी

59955 विकास सूदन, एएडी
 59956 संजीव कुमार दीपेश मिश्रा, सिग्नल्स
 59957 विजय राज, इन्फैन्ट्री
 59958 अतुल शर्मा, ईएमई
 59959 दिनेश कुमार साहू, इन्फैन्ट्री
 59960 बाल कृष्ण, इन्फैन्ट्री
 59961 पवार ज्येष मधुकर, एसी
 59962 राजीव प्रधान, एओसी
 59963 विजय नरसिम्हन, इन्फैन्ट्री
 59964 मनीष गुप्ता, इंजीनियर्स
 59965 प्रदीप गोविन्दन, आर्टी
 59966 हरिकृष्ण एन, इन्फैन्ट्री
 59967 ए वेनु गोपाल रेड्डी, ईएमई
 59968 अश्वनी सिंह, एसी
 59969 पियुष जैसवाल, एएससी
 59970 अलोक साहा, एएडी
 59971 पंकज सिन्हा, आर्टी
 59972 हिमांशु, आर्टी
 59973 सन्तोष सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
 59974 ब्रजेश बलोरिया, ईन्ट
 59975 कुलदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
 59976 आर एस प्रशांत, एओसी
 59977 पल्लव कुमार सिंह गौर, इन्फैन्ट्री
 59978 कुलशेखर सुन्धरा पांडियन, आर्टी
 59980 विभु वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री
 59981 प्रयाग रामसेई, एएससी
 59982 विनोद कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
 59983 बिबेकानन्द पट्टनाईक, इन्फैन्ट्री
 59984 दीपक श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 59985 दीपांकर बासु, इन्फैन्ट्री
 59986 के सेडिल कुमार, इन्जीनियर्स
 59987 हिमांशु पठानिया, इन्फैन्ट्री
 59988 दीपक हांडा, आर्टी
 59989 संजीव पोद्दार, इन्फैन्ट्री
 59990 परिक्षित, एसी
 60048 विनीत ओहरी, आईसी

60057 प्रशांत सक्सेना, आईसी
 60073 अभिषेक भारद्वाज, आईसी
 62431 अभिषेक सिंह लोढ़ा, सिग्नल्स
 62432 प्रदीप विज, ईएमई
 62433 दीपक टी पाटिल, ईएमई
 62434 अंशुल छाबरा, ईएमई
 62435 अमित सहवाग, ईएमई
 62437 परांजपे केदार अशोक, इन्जीनियर्स
 62438 थुंगन न्यूटन सिंह, सिग्नल्स
 62439 भास्कर भालचन्द्र बडे, इन्जीनियर्स
 62440 संजीव यादव, ईएमई
 62441 मनदीप सिंह राय, सिग्नल्स
 62443 जितेन्द्र कुमार वर्मा, इन्जीनियर्स
 62445 गगन बुद्धिराजा, सिग्नल्स
 62446 राजेन्द्र छेत्री, इन्जीनियर्स
 62447 राजीव कुमार, ईएमई
 62448 जमिल अख्तर, सिग्नल्स
 62449 महेश्वर दास, इन्जीनियर्स
 62450 नैसाजोटाऊ फ़ोम, सिग्नल्स
 62451 मेका नवीन कुमार, इन्जीनियर्स
 62452 आदित्य शर्मा, इन्जीनियर्स
 62453 सुमित शर्मा, इन्जीनियर्स
 62455 साजु, इन्जीनियर्स
 62456 रमनदीप सिंह, सिग्नल्स
 62457 अंकुश सिंह तंवर, सिग्नल्स
 62458 पाटिल दुष्यन्त प्रमोद, इन्जीनियर्स
 62459 नितिन गुप्ता, इन्जीनियर्स
 62460 पुनीत कुमार, ईएमई
 62461 अकाश शर्मा, इन्जीनियर्स
 62462 चौधरी किशोर तुकाराम, इन्जीनियर्स
 62463 सरताज सिंह, ईएमई
 62464 गगन रेखी, इन्जीनियर्स
 62465 अंशुल शर्मा, ईएमई
 62466 नितिव सौव, सिग्नल्स
 62469 शिराज धीमन, ईएमई
 62470 रितेश पाकर, इन्जीनियर्स

--10 जून 2006

- 62471 अकाशदीप सिंह सोधी, ईएमई
 62472 सुनील कुमार नौटियाल, ईएमई
 62473 सैय्यद शैम हुसैन, इन्जीनियर्स
 62474 देबाश्री दाम, ईएमई
 62475 धीरज उदापुरे, सिग्नल्स
 62476 तुषार गर्ग, सिग्नल्स
 62477 शिव शंकर सिंह हजारी, इन्जीनियर्स
 62478 अमरीक सिंह, इन्जीनियर्स
 62479 अमित भाटी, ईएमई
 62480 चिरायिल डेनी जोस, ईएमई
 62481 अनुभव श्रीवास्तव प्रेमानन्द, ईएमई
 62482 हरिहरन सीतारमन, ईएमई
 62483 विवेक कुमार पांडे, ईएमई
 62484 सिद्धार्थ जुयाल, सिग्नल्स
 62486 नरपेन्द्र सिंह, इन्जीनियर्स
 62487 ललिताभ रामकृष्ण, ईएमई

--11 जून 2006

शिव राम चैरवा
 उप निदेशक
 एमएस 8-सी

(सेना शाखा)

सं. 566, दिनांक 17 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म, एवं मूल रैंक की तिथि

आईसी-39624, पी एम बाली, इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2005

मेजर से ले. कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं., नाम, आर्म, एवं मूल रैंक की तिथि

आईसी-38652, आर स्वामीनाथन, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 31 दिसम्बर 2002 से।

नोट : उपरोक्त अधिकारी ले. कर्नल के एक्टिंग रैंक में हैं अतः उसके वेतन एवं भत्ते पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में पदोन्नति हेतु उसकी वरिष्ठता को प्रस्थापित किया गया है।

अजय गोयल
 उप निदेशक
 एम एस-8ए

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 567, दिनांक 16 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

मिसाइल गुणता आश्वासन एजेंसी, हैदराबाद के श्री पी एस रेड्डी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I का व.गु.आ.स्था.(इलै.), बंगलौर में दिनांक 16 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (विशेष वाहन), देहू रोड के श्री अनित तालुकदार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I की दिनांक 21 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (सामान्य भंडार), कानपुर के श्री गौतम गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I की दिनांक 03 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व. गु.आ.स्था. (आयुध), बोलनगौर के श्री के एल त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I का गु.आ.नि. (सैन्य विस्फोटक), किरकी में दिनांक 27 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.स्था. (सैन्य विस्फोटक), इटारसी के श्री ए वी सवाखण्डे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I का गु.आ.स्था.(सैन्य विस्फोटक), देहू रोड में दिनांक 31 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (इलै.), बंगलौर के श्री के हनुमानथरयप्पा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 17 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (इलै.), बंगलौर के श्री आर वेणुगोपाल, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु.आ.नि.(इलै.), बंगलौर में दिनांक 01 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री आर एस यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का गु.आ.नि.(सामान्य भंडार), कानपुर में दिनांक 21 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री के एच बिष्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 30 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मु.गु.आ.स्था. (ई.एफ.एस.), विशाखापत्तनम के श्री सी पी चौहान, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-I का गु.आ.नि.(सामग्री), कानपुर में दिनांक 20 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (पेट्रोलियम पदार्थ), कानपुर के श्री वी के अनेजा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 17 जून 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री विवेकानन्द, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 27 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (इलै.), मुंबई के श्री वी पी कदम, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का व.गु.आ.स्था.(इलै.) मुंबई, में दिनांक 19 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मुख्यालय गु.आ.नि. (इलै.), नई दिल्ली के श्री पी के शर्मा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का व.गु.आ.स्था.(एल. एण्ड एस.), चण्डीगढ़, में दिनांक 28 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था. (इलै.), बंगलौर के श्री जे इंद्रा प्रसाद, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 13 सितम्बर 2005 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि. (भारी वाहन), अवाडी के श्री एस मुरलीधरन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 13 सितम्बर 2005 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि.(भारी वाहन), अवाडी के श्री एन वेलयुधम, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु.आ.स्था.(इ.एफ.एस.), चेन्नई, में दिनांक 07 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था.(ई.ई.), चेन्नई विंग बंगलौर के श्री टी एम शमसुद्दीन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का व.गु.आ.स्था.(युद्धपोत उपस्कर), बंगलौर, में दिनांक 19 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था.(सामान्य भंडार), मुंबई के श्री गिरिजा शंकर, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु.आ.स्था.(सामान्य भंडार), नई दिल्ली में दिनांक 28 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था.(सामान्य भंडार), चेन्नई के श्री के दामोदरन, वैज्ञानिक कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 13 सितम्बर 2005 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि.(सामान्य भंडार), कानपुर के श्री रघुवीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का गु.आ.नि.(कपड़ा एवं मिल), कानपुर में दिनांक 03 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि.(धातु), ईच्छपुर के श्री ए के डे, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की दिनांक 15 सितम्बर 2005 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था.(आयुद्ध), मेडक के श्री दीप चंद, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु.आ.नि.(यंत्र), देहरादून, में दिनांक 07 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मु.गु.आ.स्था. (एन.एस.), मुंबई के श्री आर वी देशमुख, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-I का मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.एस.), मुंबई में दिनांक 30 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था.(एल. एण्ड एस.), चण्डीगढ़ के श्री पी के गोदूरा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 06 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि.(इलै.), बंगलौर के श्री सी एन श्रीधरन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 06 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

एन.बी.सी. विंग द्वारा गु.आ.नि.(एफ.एफ.ई.), पुणे के श्री के शंकरन, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का व.गु.आ.स्था.(इलै.), मुंबई में दिनांक 10 फरवरी 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

व.गु.आ.स्था.(इलै.), मुंबई विंग पुणे के श्री ए डी सादालगे, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 01 मार्च 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली के श्रीमती शारदा मल्होत्रा, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का मुख्यालय गु.आ.नि.(नैवल), नई दिल्ली, में दिनांक 17 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि.(इलै.), बंगलौर के श्री अप्पोली, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी की दिनांक 07 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से स्व-स्थानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

गु.आ.नि.(कपड़ा एवं मिल), कानपुर के श्री धीरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का गु.आ.नि.(सामान्य भंडार), कानपुर, में दिनांक 17 जनवरी 2006 (पूर्वाह) से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

सुभाष चंद
अवर सचिव

नेवी ब्राँच

नौसेना मुख्यालय

सं. 568, दिनांक 13 अक्टूबर 2006--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर नौसेना मुख्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया :--

नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	पेंशन स्थापना में स्थानान्तरण की तिथि
श्री यू एस थिन्डवार, एस ओ	31.01.2006	01.02.2006
श्री डी सी साहरावत, पी एस	28.02.2006	01.03.2006
श्री एच आर कपूर, पी पी एस	31.03.2006	01.04.2006
श्री भगवान दास, एस ओ	31.03.2006	01.04.2006
श्री ए. एस. नीम, एस ओ	31.03.2006	01.04.2006
श्री ठाकुर राम नाथ, एस ओ	31.03.2006	01.04.2006
श्री ए के गोबर, पी एस	30.04.2006	01.05.2006
श्री एस एल छबरा, एस ओ	30.04.2006	01.05.2006
श्री आशा राम, एस ओ	30.04.2006	01.05.2006
श्रीमति प्रोमिला रानी, एस ओ	30.06.2006	01.07.2006

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

सं. 569, दिनांक 17 अक्टूबर 2006—निम्नलिखित अधिकारी को कोर्ट मार्शल द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2005 को अधोलिखित दण्ड दिया गया :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन कमांडर के पद पर

एम आर-05917एफ (75449जेड) सर्जन कमांडर एस के जूनेजा, एएमसी/पीसी

(क) सर्जन कमांडर के पद पर ज्येष्ठता क्रम में 24 माह का अधिहरण। कड़ी भर्त्सना किया गया और इसके फलस्वरूप आर्थिक दण्ड वहन करे।

(सर्जन कमांडर के मूल रैंक में पदोन्नति हेतु भारत सरकार के राजपत्र भाग-I, खण्ड-4 में 12 जुलाई 2003 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जहाँ तक इसका सम्बन्ध उक्त अधिकारी से है उसे निरस्त किया जाता है)।

(प्राधिकार :—रक्षा मंत्रालय, नौसेना कानूनी निदेशालय पत्र संख्या एन एल/1424 दिनांक 13 अप्रैल 2006)

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप-महानिदेशक स.से.चि.से. (कार्मिक)

सं. 570, दिनांक 12 अक्टूबर 2006—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के तदर्थ आशुलिपिक ग्रेड “क” और “ख” (विलयित) (निजी सचिव) श्री जे. पी. माथुर का 3.9.2006 को स्वर्गवास हो गया है। तदनुसार, उनके नाम को 3.9.2006 के अपराह्न से रक्षा मंत्रालय की नफरी से हटाया जाता है।

वी. सरस्वती

उप सचिव

सेना शाखा

सं. 571, दिनांक 17 अक्टूबर 2006—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कप्तान से मेजर के पद पर

शुद्धि-पत्र

एमएम-13778-एक्स मेजर राजीव कुमार की पदोन्नति की तिथि जो कि दिनांक 24 अप्रैल 2004 के राजपत्र में प्रकाशित

क्रम संख्या 02 पर है। इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

के लिए : 26.02.2003 से प्रभावी

पढ़े : 26.08.2002 से प्रभावी

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप-महानिदेशक डी.जी.ए.एफ.एम.एस. (कार्मिक)

स्थायी आयोग (विशेष सूची)

शुद्धि-पत्र

सं. 572, दिनांक 17 अक्टूबर 2006—भारत के राजपत्र रक्षा मंत्रालय के अनुदेश संख्या 127 के अन्तर्गत दिनांक 26 फरवरी 1994 को प्रकाशित नियमित सेना के स्थायी आयोग (विशेष सूची) में निम्नलिखित शुद्धि की जाती है :—

के स्थान पर :—

6649038 डब्ल्यू हव. ब्रजेन्द्र सिंह, एससी (एसएल-4081एच, सेक. ले.) आर ओ

पढ़ा जाये :—

6649038 डब्ल्यू हवलदार ब्रिजेंद्र सिंह, एससी (एसएल-4081एच, सेक. ले.) आर ओ

एस. के. शर्मा

ले. कर्नल

एमएस-8बी

सं. 573, दिनांक 17 अक्टूबर 2006 :—

शुद्धिपत्र

मेजर से ले. कर्नल

भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 मई 2005 (भाग I खण्ड IV) (क्रम सं. 256) के शीर्षक “नियमित सेना स्थायी कमीशन” एवं उप शीर्षक “मेजर से ले. कर्नल” में निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है :—

के स्थान पर :—

आईसी 38652 आर स्वामिनाथन, इन्फैन्ट्री (16 दिसम्बर 2004)

पढ़ा जाए :—

रिक्त

अजय गोयल

उप सहायक सेना सचिव

PRESIDENT SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2006

No.99-Pres/2006 - The President is pleased to approve the award of the "Kirti Chakra" to the undermentioned personnel for the acts of conspicuous gallantry:-

1.

SS-39680 MAJOR JAMES THOMAS
10 SIKH LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 28 January 2006)

Major James Thomas, Company Commander, was entrusted the task to prevent infiltration across the line of control. On 27 January 2006, he established an ambush in general area in district Poonch in Jammu & Kashmir. On 28 January at 0230 hours, he observed a group of terrorists attempting to skirt the ambush and infiltrate towards the right flank. Realising the impending danger to own troops in the rear, he decisively moved forward to intercept the infiltrating terrorists, lobbed grenades and engaged them in a fierce firefight. With great determination, unflinching courage and unmindful of personal danger, he succeeded in killing four terrorists singlehandedly. In doing so, he also sustained grave splinter injuries. Meanwhile, he observed two more terrorists closing in from the other flank. He crawled towards the terrorists to lob grenades and fired at them with his personal weapon. With presence of mind, he succeeded in killing the two terrorists, before succumbing to his injuries.

Major James Thomas, displayed conspicuous gallantry, tactical acumen and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army while fighting against the terrorists.

SHRI VIJAY PAL SINGH
UTTAR PRADESH (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award: 10 April 2006)

In the evening of 10th April 2006, a huge fire erupted at the consumer show of 'Brand India' organised at Victoria Park, Meerut. On receipt of the information, fire service team reached the spot. Shri Vijay Pal Singh was one of the team members.

Shri Singh entered the burning Pandal and started moving the people out of the Pandal one by one. Unmindful of the burning and dropping polymer and explosion of gas cylinders and A.C. compressors, Shri Singh kept on moving further and continued his work with missionary zeal and dedication. He saved more than 25 lives out of the burning Pandal. In the meantime, his foot got stuck in the wooden floor. He struggled and managed to free himself but by that time, he had received serious burn injuries. He succumbed to his injuries after 13 days of hospitalisation.

Shri Vijay Pal Singh showed commendable courage in the face of odd hours and laid down his life setting an example of bravery while performing his duties.

BARUN MITRA
Director

No.100—Pres/2006 - The President is pleased to approve the award of the "Shaurya Chakra" to the undermentioned personnel for the acts of gallantry:-

1.

SHRI L SUBRAMANIYAN
KERALA (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **26 December 2004**)

On 26 December 2004, Tsunami waves struck along the coastal areas of Arattupuzha village of Kerala. On receiving the information, Sub Inspector Shri L. Subramaniyan rushed to the coast along with his party for rescue operation. When they reached there, a second wave struck along the coast and there was chaos all around.

While the rescue operation was in progress, a third and most dangerous wave hit the shore. The whole area was submerged under 10 feet high water. People and their belongings were washed away. Shri Subramaniyan and his party were also swept away due to heavy flow of water. While everything was being swirled away in water, Shri Subramaniyan got hold of one boy and one man. The pressure of the water was so much that they were hurled against a building causing severe injuries to Shri Subramaniyan. But he didn't let go the persons from his hands and saved their lives. He was shifted to a hospital but could not be saved.

Shri Subramaniyan displayed extraordinary courage and bravery in saving the lives of two individuals in adverse conditions at the cost of his own life.

2.

9104223 RIFLEMAN RIYAZ AHMAD BHAT
ASSAM REGIMENT/35 RASHTRIYA RIFLES

(Effective Date of the award: **14 April 2005**)

On 14 April 2005, presence of four terrorists in two hideouts in the Northern Sector was confirmed after a skillful interrogation of a suspected Over Ground Worker. The house had two rooms with a hideout each. The search party decided to make

simultaneous entry into the rooms. Rifleman Riyaz Ahmad Bhat was part of the house clearing team. As Rifleman Riyaz Ahmad Bhat entered the room, one terrorist, unexpectedly came out firing from a different exit. Unflustered and undaunted he shot the terrorist down in a close quarter battle. Heavy firing broke out from the other room also and Rifleman Bhat strategically placed himself under cover near the exit. The holed up terrorists let loose a volley of indiscriminate small arms fire and lobbed grenades. Another sepoy, who was part of the search team, received a splinter and was caught in the open. In an unparallel act of bravery, Rifleman Bhat broke cover to extricate his injured buddy. While doing so, he again came face to face with a second terrorist who came out firing. But exhibiting tremendous resolve and control, he shot the terrorist down and then brought the injured Sepoy to safety.

Rifleman Riyaz Ahmad Bhat, thus, displayed exceptional courage, concern for fellow comrades and rare presence of mind in fighting against the terrorists.

3. **JC-468990 SUBEDAR GUMAN SINGH**
RAJPUTANA RIFLES/43 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **11 June 2005**)

Subedar Guman Singh, while carrying out search and destroy operation in a general area in Northern Sector on 11th June 2005, spotted two terrorists hiding in a jungle. Leading a small team of four men, he immediately positioned the parties tactically to cut off escape routes and closed on to the terrorists. The terrorists started firing indiscriminately injuring Subedar Guman Singh grievously. Despite being injured, Subedar Guman Singh refused to be evacuated and kept closing on to the terrorists with determination, tenacity and adroit use of fieldcraft. His movement resulted in a fierce firefight at very close quarter. Subedar Guman Singh then lobbed grenades and fired furiously on the hiding terrorists, eliminating one hardcore terrorist, later identified as a foreign terrorist. He was hit by a bullet on the head. In spite of it, Subedar Guman Singh pinned down second hiding terrorist till the arrival of reinforcement. He then indicated the location of the hiding terrorist to the Company Commander. Subedar Guman Singh was evacuated but succumbed to his injuries on 02 July 2005.

Subedar Guman Singh displayed gallantry, grit, determination and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

4.

3389870 NAIK GURJANT SINGH
13 SIKH REGIMENT (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **07 July 2005**)

Naik Gurjant Singh was serving with a battalion on the Line of Control in Poonch district, Jammu and Kashmir.

On 07 July 2005 at 2330 hours, an ambush was sprung near Line of Control Fence and some terrorists attempted exfiltration. A party, with Naik Gurjant Singh as a member, intercepted the fleeing terrorists and fierce firefight ensued. When the party commander was critically wounded, Naik Gurjant Singh took charge and engaged the remaining terrorists. Enemy villagers from across brought down effective fire on this party in which Naik Gurjant Singh was injured. In spite of being seriously injured, Naik Gurjant Singh displayed raw courage, crawled ahead, lobbed grenades and opened heavy fire eliminating one terrorist. He kept firing at the remaining terrorists till he was evacuated and made the supreme sacrifice due to critical injuries.

Naik Gurjant Singh displayed a very high standard of courage and fortitude in the face of grave danger and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

5.

JC-529322 SUBEDAR DEVI PRASAD
8 GARHWAL RIFLES

(Effective Date of the award: **15 July 2005**)

Subedar Devi Prasad was the Ghatak Platoon commander. On 15 July 2005, on receipt of information from a source about likely presence of terrorists in Keran sector in Northern Kashmir, Subedar Devi Prasad reconnoitered the area to select an appropriate ambush site and quickly formulated a tactical plan. He deployed the team by 2100 hours and stealthily lay in wait. His team observed move of a group of terrorists. He allowed the terrorists to close in up to fifteen metres and then engaged them with heavy volume of fire. In the firefight that ensued, three terrorists in a desperate bid to escape charged at him with heavy auto fire. Subedar Devi Prasad without caring for his personal safety, displayed raw courage and confronted them personally killing all three terrorists in a close quarter combat. His actions motivated his team to eliminate the entire group of four terrorists.

Subedar Devi Prasad displayed high degree of leadership, meticulous tactical planning and raw courage in eliminating foreign terrorists.

6.

2986970 HAVILDAR MOHAMMAD MAROOF
23 RAJPUT REGIMENT

(Effective Date of the award: **16 July 2005**)

On 16 July 2005, an infiltrating column was tracked to a village in Uri sector near the Line of Control. A cordon was established around the house where the terrorists were holed up. Havildar Mohammad Maroof, leading the Ghatak Team, crawled forward under terrorist fire to close in with the house. Displaying valour, he located himself very close to the house and was able to bring down aimed fire on terrorists moving out of the house, neutralising them effectively and killing three terrorists at point blank range. The sound appreciation of ground and utter disregard for personal safety displayed by Havildar Mohammad Maroof, sealed the possible escape route of the terrorists and assisted in elimination of nine hardcore terrorists and recovery of large quantity of arms and ammunitions.

Havildar Mohammad Maroof displayed indomitable courage, tactical acumen and exemplary leadership in fighting the terrorists.

7.

SHRI SITARAM SHARMA
MADHYA PRADESH (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **18 August 2005**)

On 18 August 2005, four unknown miscreants kidnapped two villagers in Jauri Brahmin Tehsil in Bhind district of Madhya Pradesh and were taking them away in a Maruti car. At one place, when the kidnappers stopped to inquire about the way, the kidnapped persons started crying for help.

On hearing their cries, Shri Sitaram Sharma, one of the villagers rushed for their help. He was warned by others not to take risk as the kidnappers were armed. However, unmindful of his own safety, Shri Sharma challenged the kidnappers and exhorted others to help him. He attacked the kidnappers with a thorny stick. The kidnappers tried to flee in the car after leaving the kidnapped villagers. However, Shri Sharma did not allow the miscreants to escape and stood in their way. The miscreants fired at him. A bullet pierced his chest and he fell down. Shri Sharma managed to save the lives of two people by single-handedly fighting the miscreants and sacrificed his life.

Shri Sitaram Sharma showed exemplary courage and resolute will power in an attempt to apprehend the miscreants and in the process made the supreme sacrifice.

8.

13750356 HAVILDAR JAGAT RAM
1 JAMMU AND KASHMIR RIFLES(Effective Date of the award: **09 September 2005**)

On 09 September 2005, during "Operation Pir" in the General Area of Jammu & Kashmir, Havildar Jagat Ram was in the ambush party. On detection of infiltration at 0200 hours along the route, all ambushes were alerted. At 0315 hours, Havildar Jagat Ram noticed movement of terrorist column coming towards the ambush. With total disregard to personal safety and displaying dauntless courage, he waited steadfastly till the leading terrorist came as close as 10-15 metres, opened fire at point blank range leaving the terrorist shell shocked and killed two terrorists on the spot. Thereafter resiting his sub group as stops to prevent infiltration, he located the third terrorist and volunteered to close in on the terrorist who was well entrenched in area boulders and bringing down effective fire on Commanding Officer's party. Displaying exemplary courage and outstanding leadership Hav Jagat Ram crawled under terrorist fire, negotiated a rock face, exposing himself closed in on the terrorist, lobbed grenade and charged the terrorist and in fierce exchange of fire killed him.

Havildar Jagat Ram displayed raw courage, initiative and outstanding leadership in fighting the terrorists.

9.

9094954 HAVILDAR ABRAHIM
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/47 RASHTRIYA RIFLES(Effective Date of the award: **29 September 2005**)

On 29 September 2005, Havildar Abraham was leading a small team in a search and destroy mission in the forests of Kupwara district in Jammu & Kashmir.

Showing excellent field craft, he homed on to the terrorist hide out in the forest. It being an open type of hide out, in order to maintain surprise till as close as possible, he started crawling forward. Havildar Abraham picked up the terrorist sentry, and while still in the above position, fired and eliminated him. Other terrorists in the hide out retaliated with a heavy volume of small arms fire and grenades. In an extremely rare display of courage, Havildar Abraham without any trepidation, sprang at the terrorists in the hide out and eliminated one more on the spot. Unnerved by this bold and audacious charge, the terrorists abandoned the hide out and started fleeing. Havildar Abraham chased the fleeing terrorists and eliminated a third terrorist.

Havildar Abraham displayed exemplary courage, unrelenting spirit and will to win while fighting the terrorists.

10.

2489724 SEPOY RANJIT SINGH
PUNJAB REGIMENT/22 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **21 October 2005**)

On 21 October 2005 at 1250 hours, terrorist fired indiscriminately at personnel of a Battalion of Border Security Force at a Shopping Complex in Sopore district in Jammu & Kashmir and occupied adjacent shops. The troops returning from search operation heard gunshots. They rushed to the site, cordoned the shopping complex and cut off all escape routes. Sepoy Ranjit Singh who was providing covering fire to his buddy observed one terrorist lobbing a grenade on an officer and aiming to fire. Sepoy Ranjit Singh reacted quickly by rushing towards the terrorist and with accurate fire from very close range, killed the terrorist instantly. Simultaneously he pushed the officer aside, taking impact of grenade blast on himself thereby exhibited conspicuous bravery in the face of terrorist fire.

Sepoy Ranjit Singh, thus, displayed conspicuous valour, bravery beyond compare and made the supreme sacrifice of rare order.

11.

SS-41046 LIEUTENANT AMARJIT SINGH
4 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

(Effective Date of the award: **25 October 2005**)

Lieutenant Amarjit Singh got information that three to four terrorists were likely to come to identified houses in a village in district Baramulla in Jammu & Kashmir.

On 25 October 2005, Lieutenant Amarjit Singh with his troop moved to the village and deployed around target houses by 0030 hours. Soon three terrorists entered the target house. At 0530 hours, when the terrorists got out of the house, Lieutenant Amarjit Singh challenged them. The terrorists opened heavy volume of fire and ran straight towards him to escape. The officer, unmindful of own safety, stood his ground and shot dead two of them at point blank range. The third terrorist managed to enter a house. Unmindful of personal safety, Lieutenant Amarjit Singh threw a grenade, entered the house and shot dead the third terrorist. His gallant action led to the elimination of three terrorists including most dreaded and wanted self styled district commander of a dreaded terrorist outfit.

Lieutenant Amarjit Singh displayed conspicuous gallantry, indomitable resolve and personal valour beyond call of duty.

12.

IC-51468 MAJOR GOPI SINGH
GARHWAL RIFLES/14 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **10 November 2005**)

Major Gopi Singh developed intelligence about terrorists' movement across a Ridge in Jammu & Kashmir. He formulated a plan to intercept them in the forest. On 10 November 2005 at 1645 hours, he led a small team to the village through a concealed route. Close to the house his party encountered indiscriminate terrorist fire from behind a wall. The party immediately retaliated and pinned down the terrorists. While Major Gopi Singh continued to engage the terrorists, he ordered the second sub party to manoeuvre to block the likely escape routes. The terrorists hid in a house. Major Gopi Singh leading from the front, displaying unparalleled courage and total disregard to his personal safety, used fieldcraft to close in and eliminated one terrorist from close range. While attempting to close in with another terrorist, a burst from the terrorist hit him on his face and neck. The brave soldier breathed his last encouraging his men to continue engaging the terrorist.

Major Gopi Singh displayed conspicuous gallantry, exemplary leadership, professional acumen and made the supreme sacrifice in fighting the terrorists.

13.

15146963 GUNNER RANJEET SINGH
REGIMENT OF ARTILLERY/29 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **12 November 2005**)

On 12 November 2005, information was received about presence of terrorists in a house in a village in district Baramulla in Jammu & Kashmir. Gunner Ranjeet Singh as part of Quick Reaction Team immediately cordoned the house. As Gunner Ranjeet Singh alongwith his buddy and company commander was about to enter the house, a terrorist rushed out of the house firing indiscriminately injuring Gunner Ranjeet Singh. Undeterred, he chased the terrorist and injured him. The terrorist suddenly turned and fired a burst at Gunner Ranjeet Singh injuring him seriously and entered a house. Unmindful of his injuries Gunner Ranjeet Singh crawled forward, lobbed a grenade inside the house and shot dead the terrorist. Suddenly, another terrorist

opened fire from the top floor. Gunner Ranjeet Singh, before falling down and succumbing to his injuries, let off a burst injuring the second terrorist, forcing him to get back into the house. He not only showed raw courage in fighting with the terrorists but also saved the life of his company commander. The second terrorist was subsequently neutralized.

Gunner Ranjeet Singh displayed raw courage, in the face of grave danger, acting far beyond call of duty and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army.

14. **13753810 NAIK SARWAN KUMAR**
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/SPECIAL GROUP (22 SPECIAL FORCE)
(POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **19 November 2005**)

Naik Sarwan Kumar was squad commander in an operation launched in an area in district Doda in Jammu & Kashmir.

On 19 November 2005 at 0030 hours, the troops cordoned a group of houses. Naik Sarwan observed suspicious activity in a double storey house. He informed his commander and silently covered the exit. At 1130 hours, terrorists sensing being trapped, made desperate attempt to escape hurling grenades and firing, injuring his buddy. Despite heavy fire, he kept his cool and showing good reflexes and raw courage killed one terrorist and injured other. While changing the magazine of his weapon, he spotted the third terrorist firing AK-47 and closing onto him. Grievously injured by burst of fire, disregarding his personal safety, he blocked the terrorist and in fierce hand-to-hand combat, displaying raw courage killed him before attaining martyrdom. His body was recovered interlocked with the terrorist, holding terrorist in one hand and weapon in another.

Naik Sarwan Kumar displayed conspicuous bravery, raw courage, audacious action and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army.

15. **EX-GS-173840X SUPDT BUILDING/ROADS GRADE-II. GANESAN M**
(POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **14 January 2006**)

Supdt BR Grade-II Ganesan M of 437 Road Maintenance Platoon, GREF under Project Hirak was deployed at Dett Ettapalli since April 2005 for construction of a 179.94 metre long bridge over Bandiya River in Chattisgarh.

Chattisgarh State had been bearing the brunt of Naxalites since quite some time and they were not allowing any developmental work and improvement in other infrastructure in the State. Though the site of the bridge under construction is in a heavily naxal infested area, but due to technical skill and efficient administration of Shri Ganesan M, the work was progressing with tremendous speed. Therefore, he was an eyesore for Naxalites. Frequent threats and warning of dire consequences from Naxalites to stop the construction work of the said bridge did not deter him from progressing the work.

On 14th Jan 2006, at about 2200 hrs, a group of 70 to 80 armed naxalites attacked the GREF Camp at Ettapalli. The miscreants started beating the fellow workers in the Camp by shouting that who is constructing the bridge. Simultaneously, they started looting personal belongings and setting fire the vehicles and plants parked there. Shri Ganesan M came forward, showed the high quality of leadership and responsibility to save his fellow workers and told the naxalites that he was constructing the bridge as per the Government orders for development of the area. The attackers then started beating him and ultimately killed him brutally. Shri Ganesan M made the supreme sacrifice to save the lives of his assistant Overseer Lala Ram, four other GREF Personnel besides ten CP Labourers by taking the entire responsibility on him.

Supdt BR Grade-II Ganesan M, thus, displayed exceptional courage, dogged determination and made the supreme sacrifice while performing his duties.

16. **4467595 COMPANY HAVILDAR MAJOR SARBJIT SINGH**
10 SIKH LIGHT INFANTRY (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the award: **28 January 2006**)

Company Havildar Major Sarbjit Singh was part of an ambush party in general area in Poonch District in Jammu & Kashmir.

On 28 January 2006 at 0230 hours, they observed a group of terrorists skirting the ambush site and attempting to infiltrate towards a flank. Realising that the infiltrating terrorists would get away and endanger own troops, they daringly moved forward to intercept the escaping group of terrorists. Company Havildar Major Sarbjit Singh and his buddy engaged the terrorists at close quarters in a fierce firefight in which he sustained grave splinter injuries. In a rare display of courage and in spite of sustaining grave splinter injuries he alongwith his buddy neutralised four terrorists.

At this time they observed two more terrorists closing in from a flank. Company Havildar Major Sarbjit Singh, with utter determination crawled towards the advancing terrorists, lobbed grenades and fired at them with his personal weapon. He succeeded in injuring the two terrorists before succumbing to own injuries.

Company Havildar Major Sarbjit Singh displayed courage, dedication to duty, spirit of camaraderie and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

BARUN MITRA
Director

No.101-Pres/2006 - The President is pleased to approve the award of the "**Bar to Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-52752 MAJOR MANEESH KUKRETY, SM
5 JAT REGIMENT
2. IC-55810 MAJOR JUNG BAHADUR SINGH, SM
ARMY SERVICE CORPS/38 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA
Director

No.102—Pres/2006 - The President is pleased to approve the award of the "**Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-46868 LIEUTENANT COLONEL RAJEEV BAKHSHI
13 DOGRA REGIMENT (POSTHUMOUS)
2. IC-46914 LIEUTENANT COLONEL RAMESH KUMAR CHEMMALA
15 JAT REGIMENT
3. IC-50052 LIEUTENANT COLONEL AJAY KUMAR RAINA
REGIMENT OF ARTILLERY/6 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-50284 LIEUTENANT COLONEL ADITYA VIKRAM SINGH RATHEE
BRIGADE OF THE GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES
5. IC-52000 MAJOR GURPREET SINGH, 23 RAJPUT REGIMENT
6. IC-53608 MAJOR PRATEEK, PUNJAB REGIMENT/7 RASHTRIYA RIFLES
7. IC- 54563 MAJOR RAJIV GHOSH, 4 JAT REGIMENT
8. IC-52618 MAJOR NAVEEN TEOTIA
ARMY AIR DEFENCE/1 ASSAM RIFLES
9. IC-54740 MAJOR CHARAN DEV SINGH
12 BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
10. IC-55346 MAJOR SURESH SINDHU
3 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCE)
11. IC-56608 MAJOR MANEESH NAGPAL
RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLES
12. IC-57763 MAJOR VIKRAM KADIAN
ASSAM REGIMENT/35 RASHTRIYA RIFLES
13. IC-58701 MAJOR RAVI KUMAR MANEY, 6 ASSAM REGIMENT

14. IC-59519 MAJOR SG SUDHANSU SEKHAR
REGIMENT OF ARTILLERY/9 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-59940 MAJOR ABHINAV SHARMA
ASSAM REGIMENT/42 RASHTRIYA RIFLES
16. IC-61256 MAJOR DIGVIJAY SINGH CHAUHAN
CORPS OF ENGINEERS/36 RASHTRIYA RIFLES
17. IC-64366 MAJOR VIMAL SHARMA, 12 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
18. IC-64815 MAJOR DEVENDER SINGH ROHILLA
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/14 RASHTRIYA RIFLES
19. SS-38657 MAJOR UDAY GANPATRAO JARANDE
REGIMENT OF ARTILLERY/4 ASSAM RIFLES
20. SS-39551 MAJOR ARUNDEV SINGH JASROTIA
12 THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
21. IC-60250 CAPTAIN HARPREET SANDHU
4 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
22. IC-60459 CAPTAIN ASHOK KUMAR SHARMA
KUMAON REGIMENT/13 RASHTRIYA RIFLES
23. IC-61862 CAPTAIN RAJENDRA SINGH
PUNJAB REGIMENT/22 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-62661 CAPTAIN ANIL KUMAR
CORPS OF SIGNALS/15 RASHTRIYA RIFLES
25. SS-39824 CAPTAIN ASHUTOSH SHARMA, 15 JAT REGIMENT
26. SS-39921 CAPTAIN ROHAN SAWHNEY
REGIMENT OF ARTILLERY/34 RASHTRIYA RIFLES
27. SS-40082 CAPTAIN GAURAV GREWAL, 5 JAT REGIMENT
28. MS-15071 CAPTAIN VIJAYKUMAR KRISHNA MORE
ARMY MEDICAL CORPS/COMMAND HOSPITAL SOUTHERN COMMAND
29. IC-63413 LIEUTENANT RUPINDER SINGH
12 BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
30. IC-63459 LIEUTENANT AMAR MAHADEV BHOSALE
20 JAMMU AND KASHMIR RIFLES

31. IC-63969 LIEUTENANT J NARHAYANAN
21 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
32. IC-64079 LIEUTENANT MANISH PANT, 13 DOGRA REGIMENT
33. SS-40580 LIEUTENANT SAGAR CHHETRI, 18 PUNJAB REGIMENT
34. SS-41342 LIEUTENANT ANAND KUMAR
20 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
35. JC-412701 NAIB SUBEDAR KHOT MADHUKAR NARAYAN
21 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
36. JC-412760 NAIB SUBEDAR YOGAMBER SINGH
4 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
37. JC- 499333 NAIB SUBEDAR AVTAR SINGH
13 SIKH REGIMENT (POSTHUMOUS)
38. 2782279 COMPANY HAVILDAR MAJOR MOHD ASHRAF SHEIKH
22 MARATHA LIGHT INFANTRY
39. 2788931 HAVILDAR MUDSHI GURAPPA TAMMA
21 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
40. 4360512 HAVILDAR THANSING KAITHANG SIMTE
ASSAM REGIMENT/42 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
41. 4558682 HAVILDAR HIMMATRAO PANDURANG PAITHANE
1 MAHAR REGIMENT
42. 13751198 HAVILDAR RAJINDER KUMAR
1 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
43. 13754365 HAVILDAR HARDIP SINGH, 17 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
44. 14493409 HAVILDAR SUBHASH CHAND,
REGIMENT OF ARTILLERY/57 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
45. 4361162 LANCE HAVILDAR HITESWAR RAY, 8 ASSAM REGIMENT
46. 2487592 NAIK DALJIT SINGH, 26 PUNJAB REGIMENT
47. 3185323 NAIK SARWAN RAM, 14 JAT REGIMENT
48. 3994499 NAIK SATISH KUMAR
PARACHUTE REGIMENT/31 RASHTRIYA RIFLES (COMMANDO)

49. 4071524 NAIK VIJAY KUMAR DHASMANA
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
50. 4073535 NAIK SATYA PAL SINGH
GARHWAL RIFLES/14 RASHTRIYA RIFLES
51. 4074597 NAIK DIGVIJAI SINGH
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
52. 4076365 NAIK RAJESH KUMAR BAHUGUNA
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
53. 9095971 NAIK OM RAJ, JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY/31
RASHTRIYA RIFLES (CDO) (POSTHUMOUS)
54. 13759208 NAIK SUBHASH CHAND, 8 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
55. 14702902 NAIK DHURBA RAI, 1 NAGA REGIMENT
56. 14416825 NAIK HARI RAM
REGIMENT OF ARTILLERY/36 RASHTRIYA RIFLES
57. 2485844 LANCE NAIK MOHAN LAL, 25 PUNJAB REGIMENT
58. 2996924 LANCE NAIK KULDIP SINGH
13 SIKH REGIMENT (POSTHUMOUS)
59. 2997080 LANCE NAIK KAPIL DEV, 23 RAJPUT REGIMENT
60. 4075383 LANCE NAIK VINOD SINGH
GARHWAL RIFLES/14 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
61. 4077945 LANCE NAIK RAJENDRA SINGH
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
62. 4078931 LANCE NAIK RAJENDRA PRASAD
2 GARHWAL RIFLES (POSTHUMOUS)
63. 4078950 LANCE NAIK RAJENDRA SINGH BISHT
8 GARHWAL RIFLES (POSTHUMOUS)
64. 13758872 LANCE NAIK FAROOQ AHMAD RATHER
20 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
65. 13759848 LANCE NAIK RAJNEESH KUMAR SHARMA
5 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)

66. 14429640 LANCE NAIK DHARMENDRA KUMAR RANJAN, REGIMENT OF ARTILLERY/32 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
67. 15138801 LANCE NAIK SURYA MANI BEHERA
REGIMENT OF ARTILLERY/32 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
68. 15611723 LANCE NAIK HEM SINGH YADAV
BRIGADE OF THE GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
69. 2492857 SEPOY ASHOK SINGH SLATHIA
PUNJAB REGIMENT/22 RASHTRIYA RIFLES
70. 3004501 SEPOY VIKRAM SINGH
RAJPUT REGIMENT/58 RASHTRIYA RIFLES
71. 4003614 SEPOY KESHAV DUTT
DOGRA REGIMENT/31 RASHTRIYA RIFLES (COMMANDO)
72. 4191239 SEPOY DEEPAK OJHA, KUMAON REGT/50 RASHTRIYA RIFLES
73. 14703925 SEPOY KS THANREI, 1 NAGA REGIMENT
74. 4083146 RIFLEMAN DEEPAK CHAUHAN
GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
75. 4085855 RIFLEMAN NEELAM SINGH RANA, 2 GARHWAL RIFLES
76. 13768298 RIFLEMAN UTTAM MUKHIA
17 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
77. 13771588 RIFLEMAN SURINDER KUMAR
1 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
78. 15776416 GUNNER RAJANEKAR REDDY SALLARAM
ARMY AIR DEFENCE/23 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
79. 4371737 PARATROOPER DAVID KHING
21 PARACHUT REGIMENT (SPECIAL FORCES)
80. 2696025 GRENADIER SUMER SINGH SHEKHAWAT, 16 GRENADIERS
81. 15614467 GUARDSMAN SANDEEP KUMAR
BRIGADE OF THE GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

BARUN MITRA
Director

No. 103—Pres/2006 - The President is pleased to approve the award of the **"Nao Sena Medal/Navy Medal"** to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. LIEUTENANT SUPRADEEP CHENNUPATI (05207-H)
2. RAM MEHAR, PO CD I (172508-R)
3. AMARJEET, STD I (155992-B)
4. RAVINDER KUMAR, PO CD I (115081-Z)
5. ANOOP SINGH, SEA I CD II (121680-Y)
6. AJAY KUMAR, LS CD I (116383-H)

BARUN MITRA
Director

No. 104—Pres/2006 - The President is pleased to approve the award of the **"Vayu Sena Medal/Air Force Medal"** to **Squadron Leader Gurjot Singh Bhullar (22901), Flying (Pilot)** for the acts of exceptional courage.

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th November 2006

No. 556, dated 12th October 2006.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, IOFS(91), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 14.9.2006(FN) upto 18.6.2011, or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Rajendra Prasad, Under Secretary, borne on the strength of the Ministry of Defence, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, Purely on ad-hoc basis w.e.f. 21.9.2006 (FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/2/2006-CS.I(Pt.) dated the 20th September, 2006.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following condition :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri Jaibind Singh Bist, ad-hoc Section Officers borne on the CSS Cadre of Department of Personnel & Training as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 8.9.2006 (AN) for a period upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier, subject to the following conditions :

- (i) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade of CSS;
- (ii) The ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in Section officers' Grade are available either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers joint duty in their respective cadre allotted to them by the DOP&T.

The President is pleased to appoint Shri Ravi Shankar Bissa, Assistant, borne on the CSS Cadre of Department of Road Transport & Highways, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 8.9.2006 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

8—324 GI/2006

2. This supersedes this Ministry of Notification of even number dated the 14th September, 2006.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

No. 557, dated 13th October 2006.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Vijay, IDAS(92) as Director in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from the forenoon of 6.9.2006 to 5.9.2011 until further orders, which ever event takes place earlier.

D. K. PANDEY
Dir.(Fin/E)

ARMY BRANCH

No. 558, dated 18th October 2006.—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Capt

DS-12128X, BDS Kolkata, Joydip Basak, AD Corps,
18 Oct 2004.

with seniority for pay and promotion from 18.04.2004 (includes 06 months ante date for paid job or House Surgeon, in Deptt of Oral & Maxillofacial Surgery in Dr. R. Ahmed Dental & Hospital, Kolkata, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notifications published in the Gazette of India dated 11.08.2005 and 8.10.2005 in so far as it pertain to this officer or hereby cancelled.

D.K. TANEJA
Maj Gen
Addl. DGDS

No. 559, dated 17th October 2006.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Capt on promotion)

Lt Vijender Sangwan (MS14642-A), AMC, 04 Feb 2003.

(Promoted to the rank of Capt w.e.f. 04 May 2003 on completion of internship)

Capt Sumit Lathwal (MS-14435N), AMC, 13 Mar 2002

Capt Archana Dalela (MS-15122F), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Purnima Sharma (MS-15123K), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Kshitij Sisodia (MS-15125P), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Sarthak Patnaik (MS-15126X), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Prashant Pathania (MS-15130A), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Jyoti Sabharwal (MS-15131H), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Mohd Tabrez Alam (MS-15133N), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Khushpreet Singh Oberoi (MS-15134W), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Kusum Khati (MS-15136F), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Shilpi Arora (MS-15141M), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Thangtinlal Lhoujem (MS-15143X), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Madhusudan B G (MS-15144A), AMC, 16 Dec 2005
 Capt Sankalp Singh (MS-15229W), AMC, 27 Feb 2006

To be Surg Lt (On probation)

Surg Lt Anoop Kumar (MS-14850P/75853T), AMC, 27 Jul 2004
 Surg Lt Surse Yogeshwar Balasaheb (MS-15016H/75884N), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Prateek Singha (MS-15017L/75887W), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Jairam Yadav (MS-15018N/75886T), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Mark Bilcham G Momin (MS-15019W/75888Y), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Joshi Jayant bhaskarrao (MS-15020L/75889Z), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Monika Saxena (MS-15021N/75892F), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Levi Mark Manoharan (MS-15048L/75882H), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Trilok Chandra Bhatt (MS-15049N/75885R), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Aijaz Ahmed (MS-15050M/75890A), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Anjali Pandey (MS-15051L/75891B), AMC, 12 Apr 2005
 Surg Lt Namballa Jagadeesh (MS-15015A/75883K), AMC, 12 Apr 2005

Surg Lt Pranab Saikia (MS-14324W/75767Y), AMC, 21 Jan 2002
 Surg Lt Amit Kumar Agrwal (MS-15103W/75904H), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Deepak Chauhan (MS-15111P/75912A), AMC, 21 Feb 2006
 Surg Lt Rohit Varma (MS-15158A/75899Y), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt R Rajesh (MS-15160X/75913B), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Vinod Pal Saini (MS-15162H/75907R), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Sinalkar Dattatraya Ramkrishna (MS-15163L/75906N), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Manisha Thakur (MS-15164N/75902B), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Chouhan Archana Chandrakant (MS-15167F/75905K), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Rekha Ghai (MS-15168K/75898W), AMC, 16 Dec 2005
 Surg Lt Sumit Lakhanpal (MS-15187P/75908T), AMC, 23 Dec 2005

To be Capt (Probn)

Capt Ravindra Indra (MS-14890W), DOC, 05 Oct 2004
 with seniority for pay and promotion from 05.10.2001 (this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt (Probn)

Surg Lt R Shailatha (MS-14830F/75846A), DOC, 29 Mar 2004

With seniority for pay and promotion from 29 Sep 2000 (this includes 36 months for PG Degree and 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity).

Surg Lt Reetu Agarwal (MS-14829M/75845Z), DOC, 29 Mar 2004

With seniority for pay and promotion from 29 Mar 2001 [this includes 36 months for PG Degree (Doctor of Medicine) which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officers are hereby cancelled).

To be Surg Lt CDR

Surg Lt Shrabanti Roy Choudhury (MS-14633Y/75813A), DOC, 25 Feb 2003

With seniority for pay and promotion from 25 Aug 2000 (this includes 24 months for PG Diploma in Gynaecology & Obstetrics and 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification publication on in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Flt Lt (On probation)

Flt Lt Arun Kumar (MS-15171K), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Dipak Kumar Boro (MS-15173P), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Vinoy Kumar Dubey (MS-15174X), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Amrit Lal Raja (MS-15180L), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Arun Kumar Patra (MS-15230L), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Ajay Pratap Singh (MS-15237P), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Neeti Sindhwani (MS-15238X), AMC, 11 Feb 2006

Flt Lt Rahul Sud (MS-14886-N/AF-27660), AMC, 28 Sep 2004

Flt Lt Arnab Ganguly (MS-15169M), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Vinod Kumar Verma (MS-15170F/AF-28402), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt K Kanagaraju (MS-15176H), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Jyotsna Attri (MS-15177L), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Pijus Ghorai (MS-15178N), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Anumeha (MS-15181N), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Vijay Maitri (MS-15182W), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt K. Mani (MS-15189A), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Rohit Vashisht (MS-15231N/AF-28410), AMC, 16 Dec 2005

Flt Lt Pooja Khurana (MS-14424F/AF-26483), AMC, 21 Jan 2002

Flt Lt Dharitri Hatibaruah (MS-14665F/AF-26934), AMC, 9 Apr 2003

Flt Lt Sudhir Kumar (MS-14857Y/AF-26902), AMC, 11 Mar 2002

Flt Lt Lovneet Kaur (MS-14880M/AF-26932), AMC, 31 Mar 2003

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 Years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be FG. Offr on Probation)

FG. Offr Vivek Ranjan Singh (MS-15087K), AMC, 29 Oct 2005

FG. Offr Shailendra Singh (MS-15090K), AMC, 29 Oct 2005

FG. Offr Vishy Chaudhary (MS-15091M), AMC, 29 Oct 2005

FG. Offr Aseem Sharma (MS-15094A), AMC, 29 Oct 2005

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy DGAFMS (Pers)

NAVY BRANCH

No. 560, dated 18 Oct 2006.—The President is Pleased to make the following Appointment in the Executive Branch (General Service) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 26 May 2006 from the date Shown Against the Name:—

To be Sub Lt (on Probation)

Name of the Officers, P.No., Type of Commission, Date of Commission

Executive Branch [GS (X) Cadre]

Deepak Kumar Rout (05400Y), SSC, 13 Jan 2003

Abhijit Chandrakant Sangale (05401Z), SSC, 13 Jan 2003

Satyajeet Niwratirao Samle (05402A), SSC, 13 Jan 2003

Pankaj Sharma (05403B), SSC, 13 Jan 2003

SH Harshavardhana (05404F), SSC, 13 Jan 2003

Satya Narayan Ray (05405H), SSC, 13 Jan 2003

Krishnamoorthy Athani (05406K), SSC, 13 Jan 2003

Aju Das (05407N), SSC, 13 Jan 2003

Balbir Raj Singh (05408R), SSC, 13 Jan 2003

Deepash Singh Katal (05409T), SSC, 13 Jan 2003

Anshul (05410W), SSC, 13 Jan 2003

Sunil Sharma (05412Z), SSC, 13 Jan 2003

The President is Pleased to make the following Appointment in the Executive Branch (General Service) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 06 Jun 2003 from the date Shown Against the Name:—

To be Sub Lt (on Probation)

Direct Entry Scheme

Name of the Officers, P.No., Type of Commission, Date of Commission

Feb 2003 Course

Sub Lt Barkha Rathore (705399W), SSC, 10 Feb 2003

The President is Pleased to make the following Appointment in the Education Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 06 Jun 2006 from the date Shown Against the Name:—

To be Sub Lt (on Probation)

Name of the Officers, P.No., Type of Commission, Date of Commission

Education Branch

V. Vinayak Yelegaonkar (70483N), SSC, 11 Aug 2003

Joydeep Deb (70486W), SSC, 11 Aug 2003

Vatsala Singh (70488Z), SSC, 11 Aug 2003

CS Manjunath (70489A), SSC, 11 Aug 2003

Ganesh S Gaikwad (70491F), SSC, 11 Aug 2003

V.S. SALATHIA
Commander
JDMPR (R & R)

No. 561, dated 12 Oct 2006.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Ram Subhag Singh, IAS (HP:87), Private Secretary to RURM (Shri Rao Inderjit Singh) for a period beyond 19.10.2006 up to 15.11.2006.

V. SARASWATHY
Deputy Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 562, dated 18 Oct 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two years in terms of AI 37/78 as amended.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

DIRECT PERMANENT COMMISSION

CONFIRMATION

DR- 10577N, Capt Rahul Rai, 20 Aug 2004

The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

DS-12089K, Capt Vishal Sharma, 8 Feb 2003

DS-12135N, Capt Gaurav Garg, 9 Dec 2004

DS-12148L, Capt Deepu Jacob, 16 Apr 2005

DS-12150H, Lt Rohit Bahri 19 Apr 2005

DS-12152N, Lt Deptiman Shukla, 20 Apr 2005

DS-12153W, Lt Krishan Kumar, 21 Apr 2005

DS-12155F, Lt (Ms) Sunita, 19 May 2005

DS-12159X, Lt Harshavardhana B, 25 May 2005

DS-12162X, Lt Manish Kumar, 30 May 2005

DS-12165L, Lt I Mukhopadhyaya 4 Jun 2005

DS-12167W, Lt Raj Kumar, 11 Jun 2005

D.K. TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

No. 563, dated 12 October 2006.—The President is pleased to make the following promotion :-

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

BHM Kailash Chandra Yadav (No. 14362399P now JC-269202W), 25 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Jadhav Bhaskar Bapurav (No. 14397147M now JC-269203Y), 23 May 2006/01 Feb 2006*

Hav Prithi Pal (No. 14475931P now JC-269204F), 27 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Dharamvir Singh (No. 14366113X now JC-269205K), 30 May 2006/01 Mar 2006*

Hav Sukhdev Singh (No. 14484290P now JC-269206M), 30 May 2006/01 Apr 2006*

Hav R Ganapathi (No. 14491678H now JC-269207P), 17 Jul 2006/27 Apr 2006*

Hav Ram Niwas Jat (No. 14480388L now JC-269208X), 29 May 2006/28 Apr 2006*

BHM Vijay Kumar (No. 14375524X now JC-269209A), 30 Jun 2006/01 May 2006*

Hav Balekundri Maruti (No. 14398002N now JC-269210P), 03 Jun 2006/15 May 2006*

Hav Om Prakash Singh (No. 15105150Y now JC-269211X), 05 Jun 2006/16 May 2006*

Hav Ravish Kumar (No. 14476504L now JC-269212A), 29 Jun 2006/24 May 2006*

Hav Amin Chand (No. 14474776M now JC-269213H), 27 Jun 2006/01 Jun 2006*

Hav Karpal Singh (No. 14373721F now JC-269214L), 21 Jun 2006/01 Jun 2006*

- BHM Major Singh (No. 14386547Y now JC-269215N), 11 Jul 2006/02 Jun 2006*
- RHM Joginder Singh (No. 14480260A now JC-269216W), 15 Jul 2006/04 Jun 2006*
- Hav Suresh MS (No. 14370946Y now JC-269217Y), 17 Jul 2006/01 Jul 2006*
- Hav Pakher Singh (No. 14379924F now JC-269218F), 29 Jun 2006/01 Feb 2006*
- Hav Vindyachal Singh (No. 14467635P now JC-269219K), 06 Apr 2006/01 Feb 2006*
- Hav Harinam Singh (No. 14474683X now JC-269220Y), 22 May 2006/01 Feb 2006*
- Hav Arjun Singh (No. 14396825P now JC-269221F), 06 Jun 2006/05 Feb 2006*
- Hav Mahender Kumar Mishra (No. 14483491N now JC-269222K), 10 May 2006/01 Mar 2006*
- Hav Ran Bahadur Singh (No. 14483107P now JC-269223M), 02 Jun 2006/01 Mar 2006*
- Hav Skinder Singh (No. 14368140A now JC-269224P), 08 Jul 2006/01 Apr 2006*
- Hav Ramotar Mehta (No. 14483205P now JC-269225X), 30 May 2006/01 Apr 2006*
- SGHM Shambhu Prasad (No. 14368388K now JC-269226A), 20 Jun 2006/01 Apr 2006*
- Hav Ranjit Neyog (No. 14354367H now JC-269227H), 02 May 2006/01 Apr 2006*
- Hav Mridul Chandra Phukan (No. 14358187X now JC-269228L), 29 Apr 2006/04 Apr 2006*
- Hav Ram Kishan (No. 14480193A now JC-269229N), 02 Jun 2006/01 May 2006*
- Hav Orn Prakash (No. 14495655Y now JC-269230H), 10 Jul 2006/01 Jun 2006*
- Hav Prem Chandra Tiwari (No. 14368188N now JC-269231L), 11 Jul 2006/01 Jun 2006*
- Hav Kushal Pal (No. 14398011P now JC-269232N), 11 Jul 2006/01 Jun 2006*
- Hav Khet Singh Raipurohit (No. 14480371X now JC-269233W), 03 Jun 2006/01 Jun 2006*
- Hav S Ravi Chandran (No. 15103367M now JC-269186K), 24 Apr 2006/15 Feb 2006*
- Hav Jaber Singh Inda (No. 14485493L now JC-269187M), 07 May 2006/01 Apr 2006*
- Hav Naba Kishore Shoo (No. 14499985P now JC-269188P), 03 May 2006/01 Apr 2006*
- Hav Ravi Reddy Gudla (No. 15112986F now JC-269189X), 28 Apr 2006/01 Apr 2006*
- RHM Vipran Kumar (No. 14415782H now JC-269190M), 01 Apr 2006
- Hav Naresh Kumar Yadav (No. 14409370L now JC-269191P), 28 Apr 2006/12 Apr 2006*
- Hav Inderjit Singh (No. 15108773W now JC-269192X), 20 May 2006/01 May 2006*
- RHM Ajay Kumar (No. 14415791K now JC-269193A), 27 May 2006/01 May 2006*
- Hav Kameshwar Prasad (No. 14489909P now JC-269194H), 08 Jun 2006/01 Jun 2006*
- RHM Madan Singh (No. 14409571K now JC-269195L), 28 Jun 2006/23 Jun 2006*
- RHM Gnanasammandane E (No. 15114137Y now JC-269196N), 28 Jun 2006/23 Jun 2006*
- RHM Indrajit Singh (No. 14405000N now JC-269197W), 28 Jun 2006/23 Jun 2006*
- RHM Singh Sanjib Kumar (No. 14408403Y now JC-269198Y), 03 Jul 2006/23 Jun 2006*
- RHM Baljit Singh (No. 15119547Y now JC-269199F), 05 Jul 2006/23 Jun 2006*
- RHM Rajesh Kumar Singh (No. 14410302K now JC-269200L), 28 Jun 2006/23 Jun 2006*
- RHM Ranjeet Singh (No. 15113430K now JC-269201N), 29 Jun 2006/23 Jun 2006*
- Hav Bhgiya Hemat Bhikhalal (No. 14388616H now JC-269250W), 25 Mar 2006/30 Oct 2005*
- BHM Mukti Nath Prasad (No. 14481326X now JC-269251Y), 10 Mar 2006/23 Jan 2006*
- RHM Narendra Prasad Tiwari (No. 14366318M now JC-269252F), 14 Apr 2006/01 Feb 2006*
- Hav Mukhtar Singh (No. 14474713K now JC-269253K), 29 Mar 2006/01 Feb 2006*
- Hav U Chandramani Singha (No. 14480224P now JC-269254M), 29 Apr 2006/01 Feb 2006*
- Hav Lakhwinder Singh (No. 14480109P now JC-269255P), 06 May 2006/01 Feb 2006*
- Hav Sajjan Singh (No. 14476097N now JC-269256X), 16 Apr 2006/01 Feb 2006*
- Hav Chandra Bhushan Pandey (No. 14475566Y now JC-269257A), 21 May 2006/16 Feb 2006*
- Hav Jai Prakash Chander Bhatt (No. 14490113L now JC-269258H), 27 May 2006/17 Mar 2006*
- Hav A Raju (No. 14349970F now JC-269259L), 01 May 2006/18 Mar 2006*
- Hav P Soundara Rajan (No. 14484346W now JC-269260A), 02 May 2006/19 Mar 2006*

Hav Chander Bhan Yadava (No. 15101099P now JC-269261H), 02 Jul 2006/04 Apr 2006*

Hav Kamal Kishore (No. 14363227X now JC-269262L), 10 May 2006/04 Apr 2006*

Hav Desh Raj (No. 14479094L now JC-269263N), 23 May 2006/17 Apr 2006*

Hav Om Chand (No. 14489400H now JC-269264W), 01 May 2006

Hav Harinder Prasad Yadav (No. 14397811F now JC-269265Y), 01 Jun 2006

BHM Biswanath Panda (No. 14481172W now JC-269144X), 27 Oct 2005

Hav Ram Kishan Saini (No. 14371514W now JC-269145A), 09 Nov 2006/05 Aug 2005*

BHM Ashok Patlana Shetli (No. 14491602H now JC-269146H), 17 Mar 2006/06 Dec 2005*

Hav Ardhi Umapathi (No. 14393955M now JC-269147L), 01 Apr 2006/21 Nov 2005*

BHM Vijay Bahadur (No. 14476478P now JC-269148N), 28 Apr 2006/30 Nov 2005*

Hav Dange Ramesh Chandrabhan (No. 14397899W now JC-269149W), 15 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Jaganathan G (No. 15109811N now JC-269150L), 10 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav Bir Chandra Sinha (No. 14362921X now JC-269151N), 13 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Rishal Singh (No. 14372743N now JC-269152W), 31 Mar 2006/01 Feb 2006*

BHM Chandra Shekhar Prasad Singh (No. 14495577M now JC-269153Y), 20 Apr 2006/01 Feb 2006*

BHM Rakesh Pandey (No. 14363887P now JC-269154F), 13 Mar 2006/28 Feb 2006*

Hav Jaypal Singh (No. 14482935N now JC-269155K), 01 Apr 2006/01 Mar 2006*

Hav Hawa Singh (No. 14474582K now JC-269156M), 14 May 2006/01 Mar 2006*

Hav Suresh Babu G (No. 14490100N now JC-269157P), 24 Apr 2006/01 Mar 2006*

BHM Santosh Kumar Mahto (No. 14487066N now JC-269158X), 24 Apr 2006/28 Mar 2006*

Hav Surender (No. 14480548A now JC-269159A), 04 May 2006/01 Apr 2006*

*(Gtd seniority wef)

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

Hav Mohanan P (No. 14369498L now JC-299609F), 01 Aug 2006

Hav Arjun Singh (No. 14369880F now JC-299610W), 01 Aug 2006

Hav Sukhchain Singh (No. 14489290Y now JC-299611Y), 01 Aug 2006

Hav Raja Rathinam AP (No. 15101002Y now JC-299612F), 01 Aug 2006

Hav Mohan Chandra Bhatt (No. 15101432H now JC-299613K), 01 Aug 2006

Hav Avtar Singh (No. 14386307F now JC-299614M), 15 May 2006/01 Apr 2006*

Hav Dalip Singh (No. 1572477K now JC-299615P), 10 Jul 2006/01 Apr 2006*

BHM Suresh Chander Dhillon (No. 14361273N now JC-299616X), 01 Aug 2006/01 Apr 2006*

RHM Mahatim Singh Yadav (No. 14366648L now JC-299617A), 01 June 2006

Hav Saji Varghese (No. 14367576P now JC-299618H), 18 Jul 2006/01 June 2006*

BHM Amrik Singh (No. 14379668X now JC-299619L), 15 Jul 2006/02 June 2006*

THM B Sreekumaran Nair (No. 14381049H now JC-299620A), 01 July 2006

BHM Purshotam Chand (No. 14367349Y now JC-299621H), 12 July 2006/01 Jul 2006*

BHM Lallu Prasad Dwivedi (No. 14364364H now JC-299622L), 01 Aug 2006/01 Jul 2006*

Hav Mahesha AS (No. 14378605H now JC-299623N), 01 Aug 2006/01 Jul 2006*

BHM Harish Chandra Tripathi (No. 14371280X now JC-299624W), 04 Aug 2006/01 Jul 2006*

Hav Krishna Nandan Pandey (No. 14368051F now JC-299625Y), 12 Aug 2006/14 Jul 2006*

Hav Nilamani Singha (No. 14365031H now JC-299626F), 01 Aug 2006

RHM Anup Kumar (No. 14377371X now JC-299627K), 01 Aug 2006

BHM Shetana Ram (No. 14475242N now JC-299628M), 01 Aug 2006

BHM Ajabrao Manikrao Karde (No. 14360608N now JC-299629P), 01 Aug 2006

Hav Muneshwar Kumar Choudhari (No. 14386425P now JC-299630K), 01 Aug 2006

Hav Annapa Reddy SRM Reddy (No. 14387460K now JC-299631M), 01 Aug 2006

Hav Ramesh Singh (No. 14366508Y now JC-299632P), 09 Aug 2006/01 Aug 2006*

*(Gtd Ante-date seniority wef)

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 564, dated 17th October 2006—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

To be Lt Col.

Rank, Name, Personal No. and Date of Promotion

Major Sajjan Singh (NTR-16551P), 16 Dec 2004

Major Mohanan N (NTR-16630K), 16 Dec 2004

Major Cyril Damel Pareira (NTR-16565P), 16 Dec 2004

Major Hans Raj (NTR-16569L), 16 Dec 2004

Capt to Major

Capt Puttur Sanjeevi Reddy (NTR-16637N), 16 Dec 2004

Capt M. G. Palani (NTR-16679A), 11 Apr 2006

Capt Ajay Kumar Sharma (NTR-16668N), 16 Dec 2004

Capt Simon P L (NTR-16672W), 11 Apr 2006

Capt Rajesh Chandra (NTR-16674F), 11 Apr 2006

Capt D. S. Chauhan (NTR-16675K), 11 Apr 2006

Capt Vijay Kumar (NTR-16677P), 11 Apr 2006

Capt T. G. Singh (NTR-16680P), 11 Apr 2006

Capt Diwan Singh (NTR-16707F), 11 Apr 2006

Capt Chandra Bhan (NTR-16708K), 11 Apr 2006

Capt K N Reddy (NTR-16671N), 19 Apr 2005

Capt Varkey V.S. (NTR-16667L), 16 Dec 2004

Capt K. N. Naidu (NTR-16669W), 19 Apr 2005

Capt Anal Kanti Karmakar (NTR-16644K), 16 Dec 2004

Capt Diwan Singh (NTR-16676M), 11 Apr 2006

Capt N Mahabir Singh (NTR-16678X), 11 Apr 2006

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

CAPT TO MAJOR

MS-14170P Capt Subhasis Chirakalyan Patra, 13 Mar 2005

MS-14428X Capt Raj Kumar Choubey, 30 Jul 2005

MS-14299H Capt Savith Kumar, 21 Jan 2006

MS-14303A Capt Barnali Mukhopadhyay, 21 Jan 2006

MS-14333X Capt Neikhrietuonuo Linyu, 21 Jan 2006

MS-14380P Capt Rumika Yadav, 21 Jan 2006

MS-14386W Capt Deepty Parihar, 21 Jan 2006

MS-14426M Capt Partho Sarathi Roy, 21 Jan 2006

MS-14442K Capt Shiva Kumar Hiremath, 21 Jan 2006

MS-14443M Capt Yashavantha Shenoy B, 21 Jan 2006

MS-14416H Capt P Ramakrishna Prasad, 04 Feb 2006

MS-14431X Capt Niyati Airan, 06 Feb 2006

MS-14119P Capt Devinder Bir Singh, 05 Jan 2005

MS-14112L Capt Mane Sachin Shivaji, 17 Jan 2005

MS-14229K Capt Rajeev Kumar Tripathi, 12 Mar 2005

MS-14252X Capt (Miss) Anshoo Mahajan, 28 Aug 2005

MS-14408K Capt Harbhajan Singh Naghi, 27 Sep 2005

MS-14271H Capt Nishant Kumar, 21 Oct 2006

MS-14278M Capt Ravinder Kaur Oberoi, 21 Jan 2006

MS-14291W Capt Narender Paul, 21 Jan 2006

MS-14298A Capt Mendu Avanthi, 21 Jan 2006

MS-14317A Capt Jitenra Kumar Sharma, 21 Jan 2006

MS-14441F Capt R Ilangoan, 19 Jan 2006

MS-14313K Capt (Mrs) Shikha Garg, 21 Jan 2006

MS-14319L Capt Babli Singh, 21 Jan 2006

MS-14342Y Capt Hargurjeet Singh, 21 Jan 2006

MS-14343F Capt Khamkar Purabi Nilesh, 21 Jan 2006

MS-14422W Capt Ajay Sharma, 21 Jan 2006

MS-14347X Capt Parambir Singh Soni, 29 Jan 2006

MS-14429A Capt Vikas Mathur, 31 Jan 2006

MS-14430P Capt Partha Pratim Singha, 05 Feb 2006

MS-14351A Capt Balvinder Singh, 19 Feb 2006

MS-14353L Capt Pankaj Ajit Chawla, 22 Feb 2006

MS-14305L Capt Shalini Gupta, 25 Feb 2006
 MS-14359M Capt (Mrs) Shabeena Tawar, 28 Feb 2006
 MS-14400X Capt Mohan Singh Deupa, 01 Mar 2006
 MS-14362M Capt Shivanand Akki, 06 Mar 2006
 MS-14403L Capt Aradya HV, 06 Mar 2006
 MS-14368N Capt Dildeep Kaur Gill, 07 Mar 2006
 MS-14453W Capt Ashok Kumar, 08 Mar 2006
 MS-14405W Capt Amanpreet, 15 Mar 2006
 MS-14484W Capt Kanwal Jit Kaur, 19 Jun 2003
 MS-14459X Capt (Miss) Meena Jatvindu, 19 Dec 2003
 MS-14402H Capt Beena MS, 01 Mar 2006
 MS-14363P Capt Deepak Prabhakar Verma, 06 Mar 2006
 MS-14437Y Capt Mukul Sahu, 15 Mar 2006
 MS-14412M Capt Rupesh M, 01 Apr 2006

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

To be Capt

Varkey V S, Lt, NTR-16667L, 07 Apr 2004
 K N Naidu, Lt, NTR-16669W, 16 Dec 2004
 K N Reddy, Lt, NTR-16671N, 16 Dec 2004
 Manoj K V, Lt, NTR-16703L, 02 Apr 2006
 Shaik Jameer Ahmed, Lt, NTR-16705W, 02 Apr 2006
 S Ramesh, Lt, NTR-16706Y, 02 Apr 2006
 Gulam Nabi Bhat, Lt, NTR-16696A, 02 Apr 2006
 Jamuna Prasad, Lt, NTR-16698L, 02 Apr 2006
 Jai Prakash Singh, Lt, NTR-16699N, 02 Apr 2006
 MG Palani, Capt, (NTR-16679A), 16 Dec 2004
 T G Singh, Lt, (NTR-16680P), 16 Dec 2004
 Yogesh H V, Lt, (NTS-17462H), 16 Dec 2004
 Anil Kumar, Lt, (NTR-16688F), 16 Dec 2004
 Jasvinder Singh, Lt, (NTR-16685N), 16 Dec 2004
 Alexander K T, Lt, (NTR-16709M), 16 Dec 2004
 Hemant Kumar Tripathi, Lt, (NTR-16687Y), 16 Dec 2004
 Varun Srivastava, Lt, (NTS-17471K), 16 Dec 2004
 A Sukumar, Lt, (NTS-17468K), 16 Dec 2004
 Shinde Rajkumar Dnyandeo, Lt, (NTS-17467F), 16 Dec 2004
 Bagadhi Chandra Sekhara Rao, Lt, (NTS-17464N), 16 Dec 2004

Y Laxmi Narayana Reddy, Lt, (NTR-16692K), 16 Dec 2004
 Satish Kumar, Lt, (NTR-16693M), 16 Dec 2004
 Om Prakash Nain, Lt, (NTS-17481N), 16 Dec 2004
 Palanivel R, Lt, (NTS-17477L), 16 Dec 2004
 Sushil Singh, Lt, (NTS-17475A), 16 Dec 2004
 ✓ Raju P, Lt, (NTS-17472M), 16 Dec 2004
 Balram Tiwari, Lt, (NTR-16691F), 16 Dec 2004
 Prasannan Pillai B, Lt, (NTS-17474X), 16 Dec 2004
 Gokaran Singh, Lt, (NTS-17483Y), 19 May 2005
 Sharma Satish Sitaram, Lt, (NTR-16695X), 19 May 2005
 Madhu K, Lt, (NTS-17484F), 19 May 2005
 Raj Kumar E, Lt, (NTR-16701A), 02 Apr 2006

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

LT To Capt

Rakesh Kumar, Lt, (NTS-17490-P), 02 Apr 2006
 Bir Singh, Lt, (NTS-17491-X), 02 Apr 2006
 Padma Lochan Hota, Lt, (NTS-17503-F), 02 Apr 2006
 A Saravanan, Lt, (NTS-17495-N), 02 Apr 2006
 Jayakrishnan M, Lt, (NTS-17487-P), 02 Apr 2006
 Om Prakash Bishnoi, Lt, (NTS-17489-A), 02 Apr 2006
 Pravin Singh, Lt, (NTS-17492-A), 02 Apr 2006
 Tejvir, Lt, (NTS-17493-H), 02 Apr 2006
 Ravinder Kumar Sharma, Lt, (NTS-17494-L), 02 Apr 2006
 Madhusoodhanan P, Lt, (NTS-17496-W), 02 Apr 2006
 Sri Manoj Kumar Agnihotry, Lt, (NTS-17498-F), 02 Apr 2006
 Rajesh Kumar, Lt, (NTS-17499-K), 02 Apr 2006
 Murali Das R, Lt, (NTS-17500-N), 02 Apr 2006
 Rajesh R, Lt, (NTS-17502-Y), 02 Apr 2006
 Ajmer Singh, Lt, (NTS-17461A), 16 Dec 2004
 Annappa Narayan Shet, Lt, (NTS-17463L), 16 Dec 2004
 G Barnabas, Lt, (NTS-17466Y), 16 Dec 2004
 B Chinna Om Parkash, Lt, (NTS-17469M), 16 Dec 2004
 Lakpa Yelmu, Lt, (NTS-17473P), 16 Dec 2004
 Bhupesh Kumar, Lt, (NTS-17476H), 16 Dec 2004
 Birajman Chand, Lt, (NTS-17479W), 16 Dec 2004
 Rayniel Dennis Thangkhiew, Lt, (NTS-17480L), 16 Dec 2004
 Jamlal Gyuite, Lt, (NTS-17482W), 16 Dec 2004

Sanjeev Kumar, Lt, (NTS-17485K), 19 May 2005

Arun Kumar Gupta, Lt, (NTS-17486M), 19 May 2005

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Surg Lt to Surg Lt CDR

Chandra Kiran Rednam, Surg Lt, MS-14263X/75763N, 03 Jul 2005

Lobsang Dondup, Surg Lt, MS-14280K/75774N, 21 Jan 2006

Iyappan P, Surg Lt, MS-14296P/75776T, 21 Jan 2006

Vishal P, Surg Lt, MS-14327K/75786R, 21 Jan 2006

Prashant Raysad, Surg Lt, MS-14328M/75794H, 21 Jan 2006

Prasenjit Panda, Surg Lt, MS-14379A/75789Y, 21 Jan 2006

Nilotpal Mitra, Surg Lt, MS-14194Y/75737B, 12 Jul 2004

Niranjan Sahoo, Surg Lt, MS-14312F/757770B, 21 Jan 2006

K Ananth Kini, Surg Lt, MS-14393M/75796N, 18 Feb 2006

Jayanta Das, Surg Lt, MS-14361K/75800Y, 01 Mar 2006

FLT Lt To SQN LDR

Madhu G, Flt Lt, MS-14314M/26501S, 21 Jan 2006

Gopinathan S, Flt Lt, MS-14318H/26492B, 21 Jan 2006

Tamilmani A J, Flt Lt, MS-14338W/26490R, 21 Jan 2006

Mohammed Mahaboob Pasha S, Flt Lt, MS-14381X/26500N, 21 Jan 2006

Shalini Jain, Flt Lt, MS-14418N/26482S, 21 Jan 2006

Neha Nandal, Flt Lt, MS-14423Y/26488T, 21 Jan 2006

Shahla Yazdani, Flt Lt, MS-14292Y/26497A, 21 Jan 2006

Satyajit Pati, Flt Lt, MS-14635K/26485H, 21 Jan 2006

Srinivasa Prabhu M, Flt Lt, MS-14658L/26903L, 12 Mar 2006

Pallavi Goswami, Flt Lt, MS-14301P/26498F, 21 Jan 2003

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy DGAFMS(Pers)

No. 565, dated 16 Oct 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj To Lt Col

SL No., Name and ARM

4111 Suresh Kumar, SL QM

—17 Apr 2006

Pers No., Name and Arm

IC-46020 Ajay Singh, Inf

IC-40267 VK Pardeshi, Engrs

IC-41680 Ashok Abbey, Inf

IC-47041 Sharad Bikram Singh, Mech Inf

IC-48352 Rajiv Kumar Chhibber

IC-49572 Harpreet Singh, AOC

IC-50696 Sanjay Hooda, Engrs

—16 Dec 2004

Capt To Be Major

IC No., Name and Arm

59600 Digvijay Singh, AC

59601 Chandra Vijay Singh Mankotia, M/Inf

59603 Rahul Faujdar, Inf

59604 Balkar Singh, Inf

59605 Gurkiran Pal Singh, Inf

59606 Manjot Singh Gill, Arty

59607 Avnish Malik, EME

59608 Abhijeet Chandarakant Tembe, Inf

59609 Ritunjay Bahuguna, Arty

59610 Shardul Chandra Bhatnagar, AAD

59611 Amandeep Jain, Engrs

59612 Rohit Sharma, Inf

59613 Anu Sharma, Sigs

59614 Sachindra Joshi, Inf

59615 Harsimran Singh, AOC

59617 Jagjot Singh, Inf

59618 Paritosh Kala, Inf

59619 Pratvush Kumar, Inf

59620 Ashok Bisht, Sigs

59621 Gaurav Batra, Inf

59622 Aditya Jamwal, ASC

59623 Nitin Yadava, Arty

59624 Janesh Malhotra, Int

59625 Neeraj Karki, Engrs

59626 Dheeraj Kumar Singh, Inf

59627 Perminder Kumar Chauhan, AOC

59628 Vishal Baloria, ASC

59629 Amardeep Singh, Arty

59630 Amit Oscar Fernandes, Inf

59631 Amit Kumar, Arty

59632 Rajesh Barsain, Inf

59633 Vikram Mohan, AC

59634 Shashi Kanth Thumma, Arty

59635 Ayusman Bhaba Padhi, Arty

59637 Vinit Pant, AAD

59638 Mahadik Sachin Shanker, Inf

59639 Lenin Koshy, Arty

59640 Ankur Maheshwari, Arty	59681 S Nagaladi Karthikeyan, Inf
59641 Ajay Sharma, AOC	59682 Ravi Rathore, AC
59642 Puneet Kharbanda, Int	59683 Praman Chand Dube, AAD
59643 Abhishek Patnaik, Inf	59684 Sudip Majee, Inf
59644 Ashok, Inf	59685 Kapil Arora, Inf
59645 Indrani Dhar, Inf	59686 Prashant Pant, Arty
59646 Abhishek Sharma, ASC	59687 Rohit Singh, Arty
59647 Chaitanva Pandey, EME	59688 S Saravana Babu, Engrs
59648 Pranav Prasoon, Inf	59689 Amit Bisht, Inf
59649 Shyam Deo Vats, AC	59690 Arjun Pratap Singh Chabba, Arty
59650 Amandeep Singla, Arty	59691 Raju Pradhan, Engrs
59651 Sudhir Balyan, Inf	59692 Mithun R Shetty, Inf
59652 Devendra Ramesh Jaydeokar, Arty	59693 Jyotisman Hazarika, Inf
59655 Praveen Latwal, EME	59694 Rajesh Kumar, AOC
59656 Rohit Devrani, Arty	59695 Prashant Bist, Engrs
59657 Suraj Chambial, Inf	59696 Verma Amit Ashok Kumar, Arty
59658 Chandraneel, Inf	59698 Rakesh Kumar Anand, Inf
59659 Harish Raman, Arty	59699 Biju EK, AOC
59660 Ankush Chhibber, ASC	59700 Manas Sadanand Dixit, Inf
59661 Jaswinder Singh Vohra, Engrs	59701 Neerajmann, EME
59662 Uday Vijay Sagane, Inf	59702 Sameer N Parvatikar, Inf
59663 Amit Kumar Sharma, Inf	59703 Tupurani Sarat, Inf
59664 Sanjeev Kumar, Arty	59704 Gaurav Shukla, Inf
59665 Amit Ahlawat, AC	59705 Samir Mohan, AOC
59666 Praneet Dangwal, Inf	59706 Venkata Krishnam Raju, Engrs
59667 Suraj Bhan, Arty	59707 Nishant Chandel, Inf
59668 Arun R Nambisan, Arty	59708 Amit Priyavrata, M/Inf
59669 Deodutt, Inf	59709 Ram Pratap Singh, ASC
59670 Pranab Kumer Dash, M/Inf	59710 Satheesh Kumar VN, Arty
59671 Tajender Sharma, Inf	59711 Vikesh Kumar, Arty
59672 Sauvir Nautiyal, AC	59712 Amit Singh Tomar, Arty
59673 Manjit Singh Sidhu, ASC	59713 Vipul Harsh, Arty
59674 Ashok Paliath Achuthan, Inf	59714 Sanjay Kumar Choudhary, Sigs
59675 Mahim Kumar, Inf	59715 Shajip, Inf
59676 Siddhendra Singh Panwar, Sigs	59716 Vishal Rawat, Inf
59677 Govardhan Gopal Gudur, Inf	59717 Anil Kumar K, EME
59678 Nilabza Paul, ASC	59718 Kavuru Bhanu Prakash, Inf
59679 John Mathew, Sigs	59719 Puneet Sharma, Inf
59680 Mukul Payal, AAD	59720 Jivimon PA, EME

59721 Ajay Krishin Advani, Inf	59766 Saurabh Sethi, Sigs
59724 Rizwan Khan, Arty	59767 Yashpal Bisht, Arty
59725 Ratul Kapur, M/Inf	59768 Vinay Jasrotia, Inf
59726 Surjit Rai, Engrs	59769 S Magendran, ASC
59727 Mridul Kumar Sarma, Arty	59770 Mahesh Singh Panwar, Inf
59728 Sandeep Singh, M/Inf	59771 Maheshwar Singh Jamwal, Inf
59729 Har Kanwar Singh, AAD	59772 Sumit Kapur, M/Inf
59730 K Archan Andrews, Inf	59773 Triraj Subba, Inf
59731 Shidramayya S Pujar, Inf	59774 Abhijit Chanda, Inf
59732 Shreekar Ashok Pillai, Inf	59775 Shailesh Chaturvedi, AAD
59733 Sumeet Singh Makkar, Engrs	59776 Sanjeev Sarin, Arty
59734 Nitten Mehta, EME	59777 Vaibhaw Kala, EME
59735 Nitesh Singh Jaswal, Inf	59778 Mohit Grover, Arty
59736 Ramandeep Singh Buttar, Arty	59779 Murtuza Ali Asad, Inf
59738 Srirams, Inf	59780 Kandanuru Venkata Sivarama Gopi, AOC
59739 Multan Singh, ASC	59781 Suresh Pal Singh, Arty
59741 Aman Oberoi, AC	59782 Subhash Chandra, AOC
59743 Rakesh Mohan Kanswal, Inf	59783 Naveen D Prabhu, Inf
59744 Navdip Singh, ASC	59784 Saurabh Maithani, Arty
59745 Amit Tyagi, Inf	59785 Rajesh Dhyani, Inf
59746 Nitin Sharma, Inf	59786 Damle Swanand Manohar, Int
59747 Mohit Yadav, M/Inf	59787 Anup Kumar, Inf
59748 Abhinav Navneet, Inf	59788 Mohit Bhanot, Arty
59749 Amit Bhardwaj, AC	59789 Omar Suchil Pathare, Inf
59750 Sanjeev Kumar Shahi, AAD	59790 Yatendra Singh Yadav, Inf
59751 Puneet Jaiswal, Inf	59791 Vikram Raina, Inf
59752 Atul Chavan, Inf	59792 Vishal Gaurav, ASC
59753 Ranjit Singh Sandhu, Arty	59793 Avinash Sharma, M/Inf
59754 Deepak Patial, AOC	59794 Surender Singh, AOC
59755 Anshuman Badoni, AC	59795 Abhishek Aniruddha, AAD
59756 Akhil Kumar, AC	59796 Sabarish G Menon, Arty
59757 Achyuta Prasad Goswami, AAD	59797 Qayum Khan, ASC
59759 Vikram Ashesha Rastogi, Inf	59798 Asish Samantaray, Arty
59760 Sarvaiya Hirath B, Inf	59799 Lakhwinder Singh, Inf
59761 Mukesh Pandey, Inf	59800 Sonal Jain, Inf
59762 Deepak Venkateshwaran, Inf	59801 Nikhilesh Kumar Bhandari, Inf
59763 Upadhyay Shashi Bhushan SN, Arty	59802 Amit Kumar Roy, ASC
59764 Amardeep Singh, AAD	59803 Ishwar Singh Bhati, AC
59765 Chinnappan D, Engrs	59804 Sandesh Govind Khedekar, Inf

59805 Gaurav Rathee, Inf	59847 Jai Prakash Singh, Arty
59806 Abhishek Kulshrestha, Inf	59848 Ajay Kumar Upadhyay, ASC
59807 Vipin Jayara, EME	59849 TN Unnikrishnan, Inf
59808 Ajay Kumar Singh, Arty	59851 GS Ashok, Arty
59809 Sandesh Singh, Inf	59852 Amitesh Sinha, AAD
59810 Prakash Kumar Pati, AC	59853 Krishna Belkud, Inf
59811 Phurailatpam Gunabanta Sharma, AAD	59854 Rajeshwar Singh Kushwaha, Arty
59813 Ashok Kumar Rathi, Inf	59855 Sandeep Azad, Inf
59814 Ajit Kumar, Arty	59856 Navin Kumar Sharma, Inf
59815 Lachman Singh Tanwar, Arty	59857 Naresh Kumar, M/Inf
59816 Bhavnish Sharma, Inf	59858 Ravinder D Dhuri, Engrs
59817 Tarun Sansria, AAD	59859 Armit Singh, EME
59819 Devanand Singh, Arty	59860 Rohit Singh Rawat, Inf
59820 Vivek Sanwal, Inf	59861 Sarb Deep Singh Mander, AOC
59821 Vineet Jaiswal, Inf	59862 Sarvesh Singh, Arty
59822 Deepak Kumar, ASC	59863 Virbhadra Singh Rawat, Inf
59823 Hartej Pal Singh, Sigs	59864 Prasann Kumar Saxena, Arty
59824 Ranjiv Singh Patiyal, Inf	59865 Bibhudatta Acharya, EME
59825 Rajat Tyagi, Inf	59866 Rajwinder Singh Bhinder, AC
59826 Himanshu Suryavanshi, EME	59867 Piyush Kumar Gupta, Engrs
59827 Surya Vikram Singh Rana, AC	59868 Hari Nandan Joshi, Inf
59829 Vineet Goyal, Arty	59869 Mandia Jayarami Reddy, Inf
59830 Surender Pal Singh, ASC	59870 Mouli Sankar Roy, Inf
59831 Suraj PS Salaria, Inf	59871 Rakesh, AAD
59832 Wangkheimayum Sanjiv Singh, AOC	59872 Rajesh Kumar Mishra, AOC
59833 Anuj Dave, Arty	59873 Sanjeev Sharma, Inf
59834 Amit Kunal Wilson, AOC	59874 Manas Mishra, Sigs
59835 Mudit Purohit, EME	59875 Gajendra Bisht, Inf
59836 Harsh Kumar S Chauhan, Inf	59876 Praveen Kumar, Inf
59837 Ripen Pathania, AC	59877 Arvind Kumar, ASC
59838 Chinmaya Varma, Inf	59878 Ujjwalit Raj, ASC
59839 Vineet Madan, Sigs	59879 Abhinav Kumar, Arty
59840 Pramod Kumar, Arty	59880 Vidur Ji Sharma, Inf
59841 Konde Amol Krishna, Inf	59881 Anil Kumar A, Arty
59842 Narendra Bahadur Singh, Arty	59883 Udaya Vana Nayak, Inf
59843 Khushminder Singh, AC	59884 Jadhav Sampat Rao Datasahab, Arty
59844 Rohit Ashok Patwardhan, Inf	59885 Amit Chaudhari, Inf
59845 Vaidya Ashvin Kamlakar, Inf	59886 Neeraj Naithani, AC
59846 Sourav Chattopadhyay	59887 Rakesh Yadav, ASC

59889 Sankalp Pandey, ASC	59932 Sunil Kumar, Engrs
59890 Gautam Bhalla, ASC	59933 Mayengbam Kiran Meitei, Inf
59891 Ashish Chaudhary, Inf	59934 Anurag Malhotra, ASC
59892 Vivek Murthy, Arty	59935 Sashank Shekhar, AOC
59893 Sumit Sharma, Arty	59937 Sanjay Juyal, Arty
59894 Rajiv Rajan Singh, Inf	59938 Pranjal Bhargava, Inf
59895 Chanchal Singh Kapkoti, Sigs	59939 Pratap Rajnish, Inf
59896 Rahul Banerjee, Arty	59940 Abhinav Sharma, Inf
59897 Ajay Garg, Engrs	59941 Rabindra Nath Bhandari, Sigs
59898 Litton Dhar, Inf	59942 Devendra Upadhyay, Arty
59899 Amar Rugge, M/Inf	59943 Sharad Sharan, Inf
59900 Girish Bharadwaj, Inf	59944 Ashwani Kumar, Inf
59901 Santanu Das, Sigs	59946 Ashwin Patwardhan, Arty
59902 Vikram Rana, Inf	59947 Ajit Kumar N, Inf
59903 Tanvir Buttar, Arty	59948 Brijesh Kumar, ASC
59904 Subodh Shukla, AAD	59949 Kartik Sodhi, Arty
59905 Arjun Prashar, AC	59950 Sumeet Walia, AOC
59906 Rajiv Sinha, Inf	59951 Arun Kumar Sharma, ASC
59908 Anurag Sharma, Inf	59952 Rishi Sharma, Inf
59909 Nitin, Arty	59953 Santosh Sopan More, M/Inf
59910 Bobbili Amarnath, EME	59954 Rajesh Kumar Saha, Arty
59911 Karmveer Singh Tanwar, Inf	59955 Vikas Soodan, AAD
59912 Arun Malik, AOC	59956 Sanjiv Kumar Deepesh Mishra, Sigs
59913 Uday Shankar Thakur, Inf	59957 Vijaya Raj, Inf
59914 Amit Sethi, AAD	59958 Atul Sharma, EME
59915 Deepak Dobriyal, ASC	59959 Dinesh Kumar Sahu, Inf
59916 Manikyam Mahesh Kumar Gupta, Arty	59960 Bal Krishan, Inf
59917 Kunal Vatsa Tyagi, AC	59961 Pawar Jayesh Madhukar, AC
59918 Jaiveer Singh Bansiwali, Arty	59962 Rajeev Pradhan, AOC
59919 R Jithendra, EME	59963 Vijai Narasimhan, Inf
59920 Deosthali Prasad Sudhir, Int	59964 Munish Gupta, Engrs
59921 Rajeev Lokani, Engrs	59965 Pradeep Govindan, Arty
59922 Anindya Bandyopadhyay, Inf	59966 Harikrishnan N, Inf
59923 Kamal Pandey, Inf	59967 A Venu Gopal Reddy, EME
59924 Nitin Shrestha, Inf	59968 Ashwani Singh, AC
59925 Rajneesh duseja, Inf	59969 Piyush Jaiswal, ASC
59927 Ashutosh Pratap Singh, M/Inf	59970 Alok Saha, AAD
59928 Priyajit Sur, Arty	59971 Pankaj Sinha, Arty
59929 Rudraneel Das Sarma, Inf	59972 Himanshu, Arty
59930 Vijay Kumar Sharma, Int	59973 Santosh Singh, M/Inf
59931 Suresh Narayanan Inf	59974 Brijesh Bloria, Int

59975 Kuldip Singh, Inf
 59976 RS Prashant, AOC
 59978 Pratyush Kumar Singh Gaur, Inf
 59979 Kulashchakra Sundhara Pandiyan, Arty
 59980 Vibhu Vashishtha, Inf
 59981 Prayaga Ramsai, ASC
 59982 Vinod Kumar Yadav, Inf
 59983 Bibekananda Pattanaik, Inf
 59984 Deepak Srivastava, Inf
 59985 Dipankar Basu, Inf
 59986 K Sendil Kumar, Engrs
 59987 Himanshu Pathania, Inf
 59988 Deepak Handa, Arty
 59989 Sanjeeb Poddar, Inf
 59990 Parikshit, AC
 60048 Vineet Ohri, AEC
 60057 Prashant Saxena, AEC
 60073 Abhishek Bhardwaj, AEC

—10 Jnu 2006

62431 Abhishek Singh Lodha, Sigs
 62432 Pradeepvij, EME
 62433 Deepak T Patil, EME
 62434 Anshul Chhabra, EME
 62435 Amit Sewhag, EME
 62437 Paranjape Kedar Ashok, Engrs
 62438 Thongam Newton Singh, Sigs
 62439 Bhaskar Bhalchandra Bade, Engrs
 62440 Sanjeev Yadav, EME
 62441 Mandeep Singh Rai, Sigs
 62443 Jitendra Kumar Verma, Engrs
 62445 Gagan Budhiraja, Sigs
 62446 Rajendra Chhetri, Engrs
 62447 Rajeev Kumar, EME
 62448 Jamil Akhtar, Sigs
 62449 Maheshwar Dass, Engrs
 62450 Neisazotuo Yhome, Sigs
 62451 Meka Naveen Kumar, Engrs
 62452 Aditya Sharma, Engrs
 62453 Sumit Sharma, Engrs
 62455 Saju, Engrs
 62456 Ramandeep Singh, Sigs
 62457 Ankush Singh Tanwar, Sigs
 62458 Patil Dushyant Pramod, Engrs
 62459 Nitin Gupta, Engrs

62460 Puneet Kumar, EME
 62461 Akash Sharma, Engrs
 62462 Chaudhary Kishor Tukaram, Engrs
 62463 Sartaj Singh, EME
 62464 Gagan Rekhi, Engrs
 62465 Anshul Sharma, EME
 62466 Nitiv Saush, Sigs
 62469 Shiraj Dhiman, EME
 62470 Ritesh Prabhakar, Engrs
 62471 Akashdeep Singh Sodhi, EME
 62472 Sunil Kumar Nautiyal, EME
 62473 Syed Saim Husain, Engrs
 62474 Debarshee Dam, EME
 62475 Dhiraj Udupure, Sigs
 ✓ 62476 Tushar Garg, Sigs
 62477 Shiv Shankar Singh Hazari, Engrs
 62478 Amrik Singh, Engrs
 62479 Amit Bhati, EME
 62480 Chirayil Dannie Jose, EME
 62481 Anubhav Srivastava Premanand, EME
 62482 Hariharan Seetharaman, EME
 62483 Vivek Kumar Pandey, EME
 62484 Siddharth Juyal, Sigs
 62486 Nrapendra Singh, Engrs
 62487 Lalitabh Ramkrishna, EME

—11 Jun 2006

SHIV RAMBAIRWA
 Dy. Dir.
 MS-8C

No. 566, dated the 17th October 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Name, Pers No., Arm and Subs Date

PM Bali, IC-39624, Inf, 01 Oct 2005

Major to be Substantive Lt Col (By Selection)

Name, Pers No., Arm and Subs Date

R Swaminathan, IC-38652, Inf, 16 Dec 2004 but seniority from 31.12.2002

Note : The officer is already in the paid acting rank of Lt Col therefore this will not affect his pay and allowances but only for the purpose of fixing his seniority for the next select rank of Col (By Selection).

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 567, dated 16 October 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

Shri PS Reddy, SSO-I, MSQAA, Hyderabad to be PScO at SQAE(L), Bangalore w.e.f. 16 Mar 2006 (F/N).

Shri Anit Talukdar, SSO-I, CQA(SV), Dehu Road to be PScO in-situ w.e.f. 21 Oct 2005 (F/N).

Shri Gautam Gupta, SSO-I, CQA(GS), Kanpur to be PScO in-situ w.e.f. 03 Oct 2005 (F/N).

Shri KL Tripathi, SSO-I, SQAE(A), Bolangir to be PScO at CQA(ME), Kirkee, Pune w.e.f. 27 Jul 2006 (F/N).

Shri AV Sawakhande, SSO-I, QAE(ME), Itarsi to be PScO at QAE(ME), Dehu Road, w.e.f. 31 Jul 2006 (F/N).

Shri K Hanumantharayappa, JTO, CQA(L), Bangalore to be JSO in situ w.e.f. 17 Jun 2005 (F/N).

Shri R Venugopal, JTO, SQAE(L), Bangalore to be JSO at CQA(L), Bangalore w.e.f. 01 Jul 2005 (F/N).

Shri RS Yadav, SSA, SQAE(GS), Mumbai to be JSO at CQA(GS), Kanpur w.e.f. 29 Aug 2005 (F/N).

Shri KH Bist, SSA, SQAE(GS), Mumbai to be JSO in situ w.e.f. 30 Jun 2005 (F/N).

Shri CP Chouhan, STA-I, CQAE(EFS), Vizag to be JSO at CQA(M), Kanpur, w.e.f. 20 July 2005 (F/N).

Shri VK Aneja, SSA, CQA(PP), Kanpur to be JSO in-situ w.e.f. 17 Jun 2005 (F/N).

Shri Viveka Nand, SSA, SQAE(GS), Mumbai to be JSO in-situ w.e.f. 27 Jul 2005 (F/N).

Shri VP Kadam, JTO, SQAE(L), Mumbai to be JSO at SQAE(L), Mumbai w.e.f. 19 Sep 2005 (F/N).

Shri PK Sharma, JTO, HQ DQA(L), New Delhi to be JSO at SQAE(L&S), Chandigarh w.e.f. 28 Oct 2005 (F/N).

Shri J Indra Prasad, JTO, SQAE(L), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 13 Sep 2005 (F/N).

Shri S Muralidharan, JTO, CQA(HV), Avadi to be JSO in-situ w.e.f. 13 Sep 2005 (F/N).

Shri N Velayudham, JTO, CQA(HV), Avadi to be JSO at QAE(EFS), Chennai w.e.f. 07 Oct 2005 (F/N).

Shri TM Shamsuddin, JTO, SQAE(EE), Chennai Wing Bangalore to be JSO at QAE(WE), Bangalore w.e.f. 19 Oct 2005 (F/N).

Shri Girja Shankar, JTO, SQAE(GS), Mumbai to be JSO at SQAE(GS), New Delhi w.e.f. 28 Oct 2005 (F/N).

Shri K Damodaran, JTO, SQAE(GS), Chennai to be JSO in-situ w.e.f. 13 Sep 2005 (F/N).

Shri Raghuvir Singh, SSA, CQA(GS), Kanpur to be JSO at CQA(T&C), Kanpur w.e.f. 03 Oct 2005 (F/N).

Shri AK Dey, SSA, CQA(Met), Ichapur to be JSO in-situ w.e.f. 15 Sep 2005 (F/N).

Shri Deep Chand, JTO, SQAE(A), Medak to be JSO at CQA(I), Dehradun w.e.f. 07 Oct 2005 (F/N).

Shri RV Deshmukh, STA-I, CQAE(NS), Mumbai to be JSO at CQAE(WS), Mumbai w.e.f. 30 Jan 2006 (F/N).

Shri PK Godura, JTO, SQAE(L&S), Chandigarh to be JSO in-situ w.e.f. 06 Jan 2006 (F/N).

Shri CN Sreedharan, JTO, CQA(L), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 06 Jan 2006 (F/N).

Shri K Shankaran, JTO, NBC Wing C/o CQA(FFE), Pune to be JSO at SQAE(L), Mumbai w.e.f. 10 Feb 2006 (F/N).

Shri AD Sadalge, JTO, SQAE(L), Mumbai Wing Pune to be JSO in-situ w.e.f. 01 Mar 2006 (F/N).

Smt Sharada Malhotra, JTO, Dte of Std, New Delhi to be JSO at HQ DQA(N), New Delhi w.e.f. 17 Jan 2006 (F/N).

Shri Appoli, JTO, CQA(L), Bangalore to be JSO in-situ w.e.f. 07 Jan 2006 (F/N).

Shri Dharendra Kumar, JTO, CQA(T&C), Kanpur to be JSO at CQA(GS), Kanpur w.e.f. 17 Jan 2006 (F/N).

SUBHASH CHAND
Under Secy.

NAVY BRANCH

INTEGRATED HQ-MOD (NAVY)

No. 568, dated the 13th October 2006.—On attaining the age of superannuation, the following officers of NHQ have retired from Government service from the dates mentioned against their names and transferred to Pension Establishment:—

Name	Date of Retirement	Date of transfer to Pension Establishment
Shri US Bhindwar, SO	31.01.2006	01.02.2006
Shri DC Shahrawat, PS	28.02.2006	01.03.2006
Shri HR Kapoor, PPS	31.03.2006	01.04.2006
Shri Bhagwan Dass, SO	31.03.2006	01.04.2006
Shri AS Neem, SO	31.03.2006	01.04.2006
Shri Thakur Ram Nath, SO	31.03.2006	01.04.2006
Shri AK Grover, PS	30.04.2006	01.05.2006
Shri SL Chhabra, SO	30.04.2006	01.05.2006
Shri Asa Ram, SO	30.04.2006	01.05.2006
Smt Promila Rani, SO	30.06.2006	01.07.2006

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Admn. Officer (A)

**ARMY BRANCH
PERMANENT COMMISSION**

To be Surg CDR

No. 569, dated the 17th October 2006.—The undermentioned officer was awarded the punishment by the sentence of the Court Martial and date of Promulgation is 14 Dec 2005 as follows :—

MR-05917F (75449-Z) Surg Cdr SK Juneja, AMC/PC

- (a) To Forfeit twenty four calendar months seniority in substantive rank of Cdr. To be severely reprimanded and suffer consequential penalties.

The grant of substantive promotion to Surg Cdr promulgated in the Gazette Notification published on 12 Jul 2003 in Part-I of Gazette of India to the extent it relates to the officer is hereby cancelled.

(Authority :—NL/1424 dated 13 Apr 2006).

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS(Pers)

No. 570, dated the 12th October 2006.—Shri J. P. Mathur, adhoc Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (Private Secretary), expired on 3.9.2006. His name is accordingly struck off the strength of this Ministry with effect from the afternoon of 3.9.2006.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

ARMY BRANCH

No. 571, dated the 17th October 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS**

Capt to Major

(CORRIGENDUM)

The Date of Promotion in respect of MS-13778-X Major Rajeeb Kumar Serial No. 02 of the Gazette

Notification published on 24 Apr 2004 is amended as follows :—

'For' — with effect from 26.02.2003

'Read' — with effect from 26.08.2002

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS(Pers)

PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

CORRIGENDUM

No. 572, dated the 17th October 2006.—In the Gazette of India Ministry of Defence Notification No. 127 published in the Gazette of India dated 26 Feb 1994 under the heading 'Permanent Commission (Special List)' in the Regular Army is hereby amended as under :—

'For'

6649038W Hav Birendra Singh, ASC (SL-4081H, 2/LT) RO

'Read'

6649038W Hav Brijendra Singh, ASC (SL-4081H, 2/LT) RO

SK SHARMA
Lt Col
AMS-8B

Maj to Lt Col

CORRIGENDUM

No. 573, dated the 17th October 2006.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification (Part-I Section-4) published on 14 May 2005 (Ser. No. 256) under the heading "Regular Army Permanent Commission" and sub-heading "Maj to Lt Col", the following amendment is made :—

'For' — IC38652 R Swaminathan, Inf (16 Dec 2004)

'Read' — Blank

AJAY GOEL
Dy. Asstt. Military Secy.